

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 2—फरवरी 8, 2019 (माघ 13, 1940)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 2—FEBRUARY 8, 2019 (MAGHA 13, 1940)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित  
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by  
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

रक्षा (एम एस)

सं.119 दिनांक 27.12.2018—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जनवरी, 2019 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

अवैतनिक (वायुसेना) ए.डी.सी.

एयर मार्शल आर.के.एस.भदौरिया प.वि.से.में.अ.वि.से.में.वा.में. (16026) एफ (पी)

रेवती रमन

अवर सचिव

---

सेना शाखा

सं. 120 दिनांक 28.12.2018—राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं:—

नियमित सेना स्थायी कमीशन

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके द्वारा 22 सितम्बर 2017 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 22 सितम्बर 2017 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

| एस एस सं.    | आईसी सं. आबंटित | नाम      | आर्म/सर्विस |
|--------------|-----------------|----------|-------------|
| एसएस 42759पी | आईसी 73404एल    | पवन सेटी | इंफैं       |

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

(क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख – 22 सितम्बर 2007

(ख) पदोन्नति के लिये तारीख – 22 अप्रैल 2008

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों, जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

एस वि सर्मा  
कर्नल  
कर्नल सेना सचिव 7

सेना शाखा

सं. 121 दिनांक-31.12.2018—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 03 (तीन) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि टीईएस-28 पाठ्यक्रम के हैं को 10 दिसम्बर 2016 (पूर्वाह्न) से सेना अनुदेश 3/99, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है।

सचिन सोनी (आई सी 82522 ए) इंजिनियर्स की वरीयता प्रवीण सिंह (आई सी 82521 एक्स) आर्टी के नीचे, आदित्य (आई सी 82578 एम) मैक की वरीयता सौरभ यादव (आई सी 82577 के) आर्टी के नीचे, लखविंदर सिंह (आई सी 82600 एम) इंफैंट्री की वरीयता ध्रुव किशोर शर्मा (आई सी 82599 एच) इंजिनियर्स के नीचे, जिनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 142 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 26 सितम्बर 2018 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आईसी संख्या 83969के सुजीत कुमार सिंह (ईन्जिनियर्स) की वरिष्ठता आईसी संख्या 83968 एफ प्रदीप सिंह (आर्टी) के नीचे प्रकाशित किये जायें।

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 23 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है।

| आई एम ए संख्या                          | नाम          | एस एस संख्या | आर्म्स/सर्विस | अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 23 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम |              |              |               |                                    |
| यू/1331                                 | अंकुर सारसवत | 48088 एम     | ईएमई          | 01 जुलाई 13                        |

2. जैण्टलमैन कैडेट को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

निम्नलिखित 02 (दो) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 124 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1-एस-94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है।

| आई एम ए संख्या              | नाम         | एस एस संख्या | आर्म्स-सर्विस | अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 124 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम |             |              |               |                                    |
| टी 8000                     | विशाल सिंह  | 49763 ए      | सिगनल्स       | 10 जनवरी, 2017                     |
| टी 8005                     | विकास शौरान | 49768 वाई    | इंजिनियर्स    | 10 जनवरी, 2017                     |

## 2. जेन्टलमैन कैडेट्स को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

नियमित सेना  
(अल्प सेवा आयोग)  
लेफ्टिनेंट के पद पर

निम्नलिखित तीन जेन्टलमैन कैडेट्स, जो कि अल्पकालीन सेवा आयोग (एन टी)—102 पाठ्यक्रम के हैं, उनको सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 सितम्बर 2016 से 10 वर्ष के लिए, विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जोकि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पीसी/ए जी/पी एस-2(ए)डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है:

वरुण सिंह चौहान (एस एस-48831डब्ल्यू) ए सी की वरिष्ठता राकेश टी आर (एस एस-48830 एन) इन्फैन्ट्री के नीचे करन सांगवान (एस एस-48881 एफ) ए एस सी की वरिष्ठता करनवीर सिंह मान (एस एस-48880वाई) इंजिनियर्स के नीचे और सुधीर यादव (एस एस-48967 ए) ए एस सी की वरिष्ठता आदित्य राज सिंह (एस एस-48964 एम) ए ओ सी के नीचे।

निम्नलिखित जेन्टलमैन कैडेट जो कि अल्पकालीन सेवा आयोग (एन टी)—102 पाठ्यक्रम के हैं, उनको सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 सितम्बर 2016 से 10 वर्ष के लिए, विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जोकि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पीसी/ए जी/पी एस-2 (ए) डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है:—

नितिन जोस (एस एस-48901 के) इंजिनियर्स की वरिष्ठता अमित कुमार (एस एस-48900 एफ) इन्फैन्ट्री के नीचे।

निम्नलिखित तीन जेन्टलमैन कैडेट्स, जो कि अल्पकालीन सेवा आयोग (एन टी)—103 पाठ्यक्रम के हैं, उनको सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 मार्च 2017 से 10 वर्ष के लिए, विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पीसी/ए जी/पी एस-2 (ए) डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है:—

सूरज शिंदे (एस एस-49138 वाई) आर्टी की वरिष्ठता वरुण शर्मा (एस एस-49137 डब्ल्यू) ए ए डी के नीचे, विवके बिशनोई (एस एस-49168 डब्ल्यू) आर्टी की वरिष्ठता संदीप सिंह (एस एस-49167 एन) सिग्नलस के नीचे और सत्यव्रता घोष (एस एस-49209 पी) ए एस सी की वरिष्ठता विपुल कटोच (एस एस-49208 एम) एविएशन के नीचे।

निम्नलिखित तीन जेन्टलमैन कैडेट्स, जो कि अल्पकालीन सेवा आयोग (एन टी)—104 पाठ्यक्रम के हैं, उनको सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 09 सितम्बर 2017 से 10 वर्ष के लिए, विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पीसी/ए जी/पी एस-2 (ए) डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है:—

कुलबीर सिंह मोहन (एस एस-49455 ए) आर्टी की वरिष्ठता विवके (एस एस-49451 के) मैक के नीचे, विशाल सिंह (एस एस-49476 डब्ल्यू) आर्टी की वरिष्ठता अभिजीत सिंह ग्रेवाल (एस एस-49475 एन) ए एस सी के नीचे और राहुल सिंह (एस एस-49492 एन) इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता प्रतीक पाण्डेय (एस एस-49493डब्ल्यू) आर्टी के उपर।

निम्नलिखित तीन जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग (टैक)—45 पाठ्यक्रम के हैं, लेफ्टिनेंट के पद पर पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत है उनके सम्मुख अंकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 10 सितम्बर 2016 से सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है उन्हें दिनांक 13 सितम्बर 2015 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिये दी जाती है:—

गुरिन्दर सिंह गिल (एस एस-49019 एच) सिग्नलस (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-05 अक्टूबर 15) की वरिष्ठता गौरव बेरी (एस एस-49018ए) सिग्नलस के नीचे।

निम्नलिखित तीन जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग (टैक)—47 पाठ्यक्रम के हैं, लेफ्टिनेंट के पद पर पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत है, को उनके सम्मुख अंकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 09 सितम्बर 2017 से सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 11 सितम्बर 2016 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है:—

पीयूष कुमार भेंसले (एस एस-49603 ए) आर्टी (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-03 अक्टूबर 16) की वरिष्ठता साहिल वर्मा (एस एस-49602 एक्स) इन्फैन्ट्री के नीचे, राजीव रंजन (एस एस-49627 के) इन्ट (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-03 अक्टूबर 16) की वरिष्ठता आदित्य माजिला (एस एस-49626 एफ) इन्फैन्ट्री के नीचे और सौरभ मालाकार (एस एस-49711 के) ए एस सी (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-03 अक्टूबर 16) की वरिष्ठता सिद्धार्थ शर्मा (एस एस-49710 एफ) आर्टी के नीचे।

संदीप सिंह ठाकुर  
ले. कर्नल  
ए एम एस 8बी

#### सेना शाखा

सं. 122 दिनांक 01.01.2019—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

#### प्रादेशिक सेना

#### पिछली तिथि से वरियता

एस एस 39399 वाई पूर्व कैप्टन अशीश गुरंग अब टी ए-43047 वाई लैफ्टीनेन्ट अशीश गुरंग को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), के परिशिष्ट.VIII के अन्तर्गत दिनांक 10 नवम्बर 2016 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 14 साल (दिनांक 01 सितम्बर 2001 से 01 सितम्बर 2015) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 10 नवम्बर 2002 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर वरियता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरियता के कारण उन्हें दिनांक 10 नवम्बर 2016 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 (संशोधित संस्करण 1976) के पैरा 25 (ए) तथा 38 (ए) में निहित प्रावधान ए ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 18 (01) 2006/डी (जी एस.1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरियता के साथ दिनांक 10 नवम्बर 2006 से कैप्टन, 10 नवम्बर 2010 से मेजर तथा 10 नवम्बर 2017 से लैफ्टीनेन्ट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

#### प्रादेशिक सेना

#### पिछली तिथि से वरीयता

एस एस 40933एक्स पूर्व लैफ्टीनेन्ट बाबर सलीम अब टी ए-43032डब्ल्यू लैफ्टीनेन्ट बाबर सलीम को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 (संशोधित संस्करण 1976) में निहित प्रावधान, के परिशिष्ट-VIII के अन्तर्गत दिनांक 15 जुलाई 2016 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 10 साल (दिनांक 17 सितम्बर 2004 से 17 सितम्बर 2014) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 15 जुलाई 2006 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर वरियता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 15 जुलाई 2016 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 (संशोधित संस्करण 1976) में निहित प्रावधान के पैरा 25 (ए) तथा 38 (ए) ए ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 18 (01) 2006/डी (जी एस.1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 15 जुलाई 2010 से कैप्टन तथा 15 जुलाई 2014 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

सुदर्शन कुमार  
अवर सचिव

#### (सेना शाखा)

सं. 123 दिनांक 02.01.2019—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं।

#### नियमित सेना

#### स्थायी आयोग

निम्नलिखित 51 (इक्कावन) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 10+2 टी ई एस-31 पाठ्यक्रम के हैं, को 09 जून 2018 (पूर्वाहन) से सेना अनुदेश 3/99, यथासंशोधित के नियम शर्तों के अंतर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

| आई सी संख्या | नाम                  | आर्मस/सर्विस |
|--------------|----------------------|--------------|
| 84048        | डब्ल्यू दिपांशु सोनी | इंफैन्ट्री   |

| आई सी संख्या |         | नाम                   | आर्मस/सर्विस   |
|--------------|---------|-----------------------|----------------|
| 84049        | वाई     | लोहित यादव            | इंफैन्ट्री     |
| 84050        | एन      | विशाल सिंह            | आर्टी          |
| 84051        | डब्ल्यू | के अविनाश             | सिगनल्स        |
| 84052        | वाई     | संजय अधिकारी          | इंफैन्ट्री     |
| 84053        | एफ      | अमित दाधीच            | इंफैन्ट्री     |
| 84054        | के      | अंकित पाण्डेय         | सिगनल्स        |
| 84055        | एम      | विकास ठाकुर           | मैक इंफैन्ट्री |
| 84056        | पी      | हडपद बसवराज शेखरअप्पा | सिगनल्स        |
| 84057        | एक्स    | वरुण सिंह जामवाल      | आर्टी          |
| 84058        | ए       | विषभ सिंह             | ईएमई           |
| 84059        | एच      | सुमित भट्ट            | इंजिनियर्स     |
| 84060        | एक्स    | आशुतोष सिंह           | इंजिनियर्स     |
| 84062        | एच      | मयंक शर्मा            | सिगनल्स        |
| 84063        | एल      | राहुल उपरारी          | इंफैन्ट्री     |
| 84066        | वाई     | मनदीप सिंह            | ईएमई           |
| 84067        | एफ      | विवेक सोमानी          | इंजिनियर्स     |
| 84068        | के      | अनिल हिन्दुजा         | सिगनल्स        |
| 84069        | एम      | हिमांशु उपाध्याय      | ईएमई           |
| 84070        | एफ      | अतुल यादव             | ईएमई           |
| 84071        | के      | अमनदीप सिंह           | एसी            |
| 84072        | एम      | अंकित कुमार जायसवाल   | सिगनल्स        |
| 84074        | एक्स    | सूरज कुमार शर्मा      | ईएमई           |
| 84075        | ए       | इन्द्रनील राणा        | ईएमई           |
| 84076        | एच      | निशांत आदित्य सिंह    | एएडी           |
| 84078        | एन      | अमन धर                | सिगनल्स        |
| 84079        | डब्ल्यू | गौरव ढाका             | सिगनल्स        |
| 84080        | एल      | शिवांश देव सिंह जसवाल | इंफैन्ट्री     |
| 84082        | डब्ल्यू | यथार्थ शर्मा          | इंजिनियर्स     |
| 84083        | वाई     | आकाश कुमार त्यागी     | ईएमई           |
| 84084        | एफ      | तेजस सुपेकर           | सिगनल्स        |
| 84085        | के      | सत्यम् धवन            | ईएमई           |
| 84086        | एम      | राजवीर जाजड़ा         | एएससी          |
| 84087        | पी      | सौमित्र दुबे          | सिगनल्स        |
| 84088        | एक्स    | जो सिबी मट्टिल        | ईएमई           |
| 84089        | ए       | शोभित यादव            | इंजिनियर्स     |
| 84090        | पी      | आदित्य महलवाल         | इंजिनियर्स     |
| 84091        | एक्स    | हर्षित पुण्डीर        | सिगनल्स        |
| 84092        | ए       | राहुल सिंह            | इंफैन्ट्री     |
| 84093        | एच      | गुडा तिरुपति बाबुराव  | इंफैन्ट्री     |
| 84095        | एन      | ललित राणा             | एओसी           |
| 84096        | डब्ल्यू | मानवेन्द्र नेगी       | इंजिनियर्स     |

| आई सी संख्या | नाम     | आर्मस/सर्विस                |
|--------------|---------|-----------------------------|
| 84097        | वाई     | जैनिथ बोरा                  |
| 84098        | एफ      | परीक्षित देब                |
| 84099        | के      | अजीत कुमार सिंह             |
| 84100        | एन      | सन्नी सिंह                  |
| 84101        | डब्ल्यू | रवि राठौड़                  |
| 84103        | एफ      | सालुंखे सन्नी दत्तात्रय     |
| 84104        | के      | अर्पित कुमार                |
| 84107        | एक्स    | अभिषेक पाण्डेय              |
| 84108        | ए       | यादव चन्द्रप्रकाश रामनारायण |

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 14 (चौदह) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 125 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) उपसर्ग लगे हुए हैं को 09 जून 2018 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 11 जून 2017 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

| आई एम ए संख्या | नाम                    | आई सी संख्या | आर्म /सर्विस |
|----------------|------------------------|--------------|--------------|
| टी/8033        | करनविर सिंह भंगू       | 84113        | एल           |
| टी/8039        | विक्रमजीत सिंह खजूरिया | 84116        | वाई          |
| टी/8047        | पारख अमेय लोकेश        | 84120        | एफ           |
| टी/8042        | विशाल कुमार            | 84121        | के           |
| टी/8060        | हरीश पाटिल             | 84124        | एक्स         |
| टी/8049        | नितिश भाटिया           | 84125        | ए            |
| टी/8015        | विशाल सालुंके          | 84130        | एल           |
| टी/8032        | साहिल चौधरी            | 84132        | डब्ल्यू      |
| टी/8048        | राजन त्यागी            | 84133        | वाई          |
| टी/8059        | वैशाख जे नायर          | 84135        | के           |
| टी/8036        | सोहम सतपती             | 84137        | पी           |
| टी/8007        | प्रशांत कुमार पाण्डेय  | 84141        | एक्स         |
| टी/7969        | हर्षल जोशी             | 84143        | एच           |
| टी/8058        | विगनेश वी              | 84146        | डब्ल्यू      |

2. निम्नलिखित 02 (दो) जैण्टलमैन कैडेट्स को भी सेना अनुदेश 105/61 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत ले0 के पद पर 9 जून 2018 (पूर्वाह्न) से स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

| आई एम ए संख्या | नाम             | आई सी संख्या | आर्म /सर्विस |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| टी/8029        | लोकेश सिंह रावत | 84111        | ए            |
| टी/8020        | देश रत्न        | 84119        | एम           |

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 06 (छः) जैण्टलमैन कैडेट्स (जी सी) जो कि 123 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) तथा 25 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) तथा यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं को 10 जून 2017 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है तथा इनको 12 जून 2016 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94,

यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है, तथा इनमें से 01 (एक) अधिकारी टी/7938 गौरव सिंह रावत (आई सी 83097एम) जो कि आईसी में कमीशन हुए हैं को सेना अनुदेश 105/61 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत ले0 के पद पर 10 जून 2017 (पूर्वाहन) से स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है तथा इन्हें एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए नहीं दी जाती है।

यू/1507 गुनीतबीर सिंह (आई सी 83096 के) इंफैन्ट्री की वरीयता यू/1497 अनंत जोत सिंह (आई सी 83094 वाई) इंजिनियर्स के नीचे, टी/7938 गौरव सिंह रावत (आई सी 83097 एम) आईसी की वरीयता टी/7936 सिद्धार्थ घोष (आई सी 83098 पी) सिगनल्स के उपर, यू/1515 अर्शदीप मनोट (आई सी 83133 एम) एसी की वरीयता यू/1509 मनीत गोयल (आई सी 83132 के) इंजिनियर्स के नीचे, यू/1527 मोहित प्रकाश सिंह (आई सी 83149 एक्स) इंजिनियर्स की वरीयता यू/1524 तोशल हेमंत व्यास (आई सी 83148 पी) इंफैन्ट्री के नीचे, टी/7959 शोभित शेट्टी के जे (आई सी 83150 एम) आर्टी की वरीयता टी/7971 हरकिरत सिंह (आई सी 83151 पी) आर्टी के उपर, यू/1516 निश्चय धवन (आई सी 83154 एच) एएससी की वरीयता यू/1513 अक्षय भारद्वाज (आई सी 83153ए) इंजिनियर्स के नीचे, जिनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

#### नियमित सेना

#### स्थायी आयोग

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट्स (जी सी) जो कि 23 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं को 13 जून 2015 (पूर्वाहन) से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है तथा इनको 15 जून 2014 से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

यू/1331 अंकुर सारसवत (आई सी 80803 एक्स) एविएशन की वरीयता टी/7706 सिजो टि जोस (आई सी 80802 पी) आर्टी के नीचे, जिनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

#### नियमित सेना

#### अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

1. निम्नलिखित एक जैण्टलमैन कैडेट जो कि 123 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वाले को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है।

| आई एम ए संख्या              | नाम        | एस एस संख्या | आर्म्स /<br>सर्विस | अल्पकालीन सेवा<br>(परखाधीन) तिथि | आयोग        |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------|-------------|
| 123 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम |            |              |                    |                                  |             |
| टी / 7969                   | हर्षल जोशी | 49398        | के                 | ईएमई                             | 12 जुलाई 16 |

2. जैण्टलमैन कैडेट को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

निम्नलिखित 02 (दो) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 123 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) तथा 25 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है।

| आई एम ए संख्या                          | नाम             | एस एस संख्या | आर्म्स/सर्विस | अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 123 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम             |                 |              |               |                                    |
| टी/7926                                 | उत्सव खण्डेलवाल | 49360 ए      | इंजिनियर्स    | 12 जुलाई 16                        |
| 25 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम |                 |              |               |                                    |
| यू/1486                                 | वैभव मिश्रा     | 49405 पी     | इंजिनियर्स    | 01 जुलाई 15                        |

1. जैण्टलमैन कैडेट को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

1. निम्नलिखित 05 (पांच) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 123 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) तथा 25 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है।

| आई एम ए संख्या                          | नाम                | एस एस संख्या | आर्म्स/सर्विस | अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 123 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम             |                    |              |               |                                    |
| टी/7959                                 | शोभित शेट्टी के जे | 49389 एच     | ईएमई          | 12 जुलाई 16                        |
| 25 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम |                    |              |               |                                    |
| यू/1507                                 | गुनीतबीर सिंह      | 49426 एल     | ईएमई          | 01 जुलाई 15                        |
| यू/1515                                 | अर्शदीप मनोट       | 49434 के     | इंजिनियर्स    | 01 जुलाई 15                        |
| यू/1516                                 | निश्चय धवन         | 49435 एम     | ईएमई          | 01 जुलाई 15                        |
| यू/1527                                 | मोहित प्रकाश सिंह  | 49446 वाई    | ईएमई          | 01 जुलाई 15                        |

2. जैण्टलमैन कैडेट्स को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

1. निम्नलिखित 02 (दो) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 124 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वाले को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है।

| आई एम ए संख्या              | नाम                   | एस एस संख्या |         | आर्म्स/ सर्विस | अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------|------------------------------------|
| 124 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम |                       |              |         |                |                                    |
| टी/8007                     | प्रशांत कुमार पाण्डेय | 49770        | डब्ल्यू | ईएमई           | 10 जनवरी 17                        |
| टी/8015                     | विशाल सालुके          | 49777        | ए       | इंजिनियर्स     | 15 जनवरी 17                        |

2. जैण्टलमैन कैडेट्स को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

1. निम्नलिखित 11 (ग्यारह) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 125 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है:—

| आई एम ए संख्या              | नाम                    | एस एस संख्या |         | आर्म/ सर्विस | अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि |
|-----------------------------|------------------------|--------------|---------|--------------|------------------------------------|
| 125 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम |                        |              |         |              |                                    |
| टी/8032                     | साहिल चौधरी            | 50022        | पी      | इंजिनियर्स   | 11 जुलाई 17                        |
| टी/8033                     | करनविर सिंह भंगू       | 50023        | एक्स    | ईएमई         | 11 जुलाई 17                        |
| टी/8036                     | सोहम सतपती             | 50026        | एल      | ईएमई         | 11 जुलाई 17                        |
| टी/8039                     | विक्रमजीत सिंह खजूरिया | 50028        | डब्ल्यू | ईएमई         | 11 जुलाई 17                        |
| टी/8042                     | विशाल कुमार            | 50031        | डब्ल्यू | इंजिनियर्स   | 11 जुलाई 17                        |
| टी/8047                     | पारख अमेय लोकेश        | 50036        | पी      | ईएमई         | 11 जुलाई 17                        |
| टी/8048                     | राजन त्यागी            | 50037        | एक्स    | ईएमई         | 11 जुलाई 17                        |
| टी/8049                     | नितिश भाटिया           | 50038        | ए       | सिगनल्स      | 11 जुलाई 17                        |
| टी/8058                     | विगनेश वी              | 50047        | एफ      | ईएमई         | 11 जुलाई 17                        |
| टी/8059                     | वैशाख जे नायर          | 50048        | के      | ईएमई         | 21 जुलाई 17                        |
| टी/8060                     | हरीश पाटिल             | 50049        | एम      | इंजिनियर्स   | 28 जुलाई 17                        |

2. जैण्टलमैन कैडेट्स को दिये गये आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

प्रकाश कुमार सिंह  
ले. कर्नल  
ए एम एस 8 बी

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 124, दिनांक 3 जनवरी 2019—राष्ट्रपति सहर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:—

## कार्यकारी मेजर जनरल से स्थायी मेजर जनरल

| नं., रैंक तथा नाम                           | मूल रैंक प्रदान किए जाने की तारीख |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| आई सी 48887 एच मेजर जनरल एम के हाडा, ई.एम.ई | 05.02.2018                        |

बी के मिश्रा

सह निदेशक (कार्मिक-ए एफ)

कृते अध्यक्ष रक्षा अनु० एवं वि० सं० एवं सचिव डी. डी.(आर एंड डी)

04 जनवरी 2019

## वायु शाखा

सं. 125, दिनांक 4 जनवरी 2019—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :—

## भारतीय वायु सेना

## उड़न शाखा

## एयर मार्शल के मूल रैंक में

| रैंक       | नाम                          | संख्या | शाखा  | दिनांक   |
|------------|------------------------------|--------|-------|----------|
| एयर मार्शल | चौधरी विवेक राम एवीएसएम वीएम | 16978  | उ(पा) | 01.10.18 |
| एयर मार्शल | देव अमित वीएसएम              | 16972  | उ(पा) | 01.10.18 |

प्रशांत कुमार

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

## सेना शाखा

सं. 126, दिनांक 7 जनवरी 2019—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

प्रादेशिक सेना  
प्रादेशिक कमीशन

## लै० कर्नल बनाया जाता है

|                               |             |               |               |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| मेजर डेविड लालहमिंगथांग खोजोल | (टीए-42883) | (इन्फैन्ट्री) | 04 अगस्त 2018 |
| मेजर प्रवीण शर्मा             | (टीए-43038) | (इन्फैन्ट्री) | 01 अगस्त 2018 |
| मेजर अयूब खान                 | (टीए-42572) | (इन्फैन्ट्री) | 07 जुलाई 2018 |
| मेजर विक्रम शर्मा             | (टीए-42854) | (इन्फैन्ट्री) | 13 फरवरी 2018 |

## मेजर बनाया जाता है

|                           |             |               |                |
|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| कैप्टन पुनीत दधीच         | (टीए-42574) | (इन्फैन्ट्री) | 06 फरवरी 2018  |
| कैप्टन परमिन्दर सिंह सोहल | (टीए-42848) | (इन्फैन्ट्री) | 06 जून 2016    |
| कैप्टन भूपेन्द्र सिंह मान | (टीए-42885) | (इन्फैन्ट्री) | 05 जून 2017    |
| कैप्टन अमित नागरकर        | (टीए-42762) | (इन्फैन्ट्री) | 05 अप्रैल 2018 |

|                        |             |               |                |
|------------------------|-------------|---------------|----------------|
| कैप्टन चन्दन बोरगोयारी | (टीए-42766) | (इन्फैन्ट्री) | 29 अप्रैल 2018 |
| कैप्टन क्षत्रपाल चौहान | (टीए-42768) | (इन्फैन्ट्री) | 08 मई 2018     |
| कैप्टन बनाया जाता है   |             |               |                |
| लै0 राघव खजुरिया       | (टीए-42926) | (इन्फैन्ट्री) | 04 जून 2018    |
| लै0 वेदान्त गहलोत      | (टीए-42927) | (इन्फैन्ट्री) | 10 जून 2018    |
| लै0 कनव अस्थिर         | (टीए-42932) | (इन्फैन्ट्री) | 13 जुलाई 2018  |

सुदर्शन कुमार  
अवर सचिव

सं. 127, दिनांक 8 जनवरी 2019—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:—

नियमित सेना  
अल्प-कालीन सेवा कमीशन(मैन)  
ले. से कप्तान

| एस.एस.सं. | नाम            | आर्म       | वरीयता तिथि | कोर्स            | संशोधित वरीयता तिथि | कप्तान दिनांक से |
|-----------|----------------|------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|
| 49271     | नितिश मिश्रा   | सिग्नलस    | 13 मार्च 16 | एस.एस.सी. 46(टी) | 13 अप्रैल 16        | 13 अप्रैल 18     |
| 49290     | नवनीश वशिष्ठ   | आर्टी      | 13 मार्च 16 | एस.एस.सी. 46(टी) | 13 अप्रैल 16        | 13 अप्रैल 18     |
| 49294     | अमन पटवाल      | सिग्नलस    | 13 मार्च 16 | एस.एस.सी. 46(टी) | 13 अप्रैल 16        | 13 अप्रैल 18     |
| 49298     | अमरिन्द्र सिंह | एविेशन     | 13 मार्च 16 | एस.एस.सी. 46(टी) | 13 अप्रैल 16        | 13 अप्रैल 18     |
| 49318     | निशान्त गौतम   | ई एम ई     | 13 मार्च 16 | एस.एस.सी. 46(टी) | 13 अप्रैल 16        | 13 अप्रैल 18     |
| 49347     | अक्षय त्रिवेदी | इंजिनियर्स | 13 मार्च 16 | एस.एस.सी. 46(टी) | 13 अप्रैल 16        | 13 अप्रैल 18     |

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं

नियमित सेना  
अल्प-कालीन सेवा कमीशन(एस.एस.सी.डब्ल्यू.)  
ले. से कप्तान

| एस.एस.सं. | नाम          | आर्म       | वरीयता तिथि | कोर्स                    | संशोधित वरीयता तिथि | कप्तान दिनांक से |
|-----------|--------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| 49283     | निधि         | इंजिनियर्स | 13 मार्च 16 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.-17(टी) | 13 अप्रैल 16        | 13 अप्रैल 18     |
| 49352     | कणिका मिश्रा | ई एम ई     | 13 मार्च 16 | एस.एस.सी.डब्ल्यू.-17(टी) | 13 अप्रैल 16        | 13 अप्रैल 18     |

नियमित सेना  
अल्प-कालीन सेवा कमीशन(मैन)  
ले. से कप्तान

| एस.एस.सं. | नाम            | आर्म       | वरीयता तिथि   | कोर्स            | संशोधित वरीयता तिथि | कप्तान दिनांक से |
|-----------|----------------|------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| 48314     | अर्जुन शर्मा   | सिग्नल्स   | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14       | 14 अक्टूबर 16    |
| 48321     | एस वी सुभाष    | ई एम इ     | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14       | 14 अक्टूबर 16    |
| 48326     | के आर जोशी     | आर्टी      | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14       | 14 अक्टूबर 16    |
| 48336     | एम डी सुहेल    | ए ए डी     | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14       | 14 अक्टूबर 16    |
| 48355     | माइकल सी जॉन   | इंजिनियर्स | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14       | 14 अक्टूबर 16    |
| 48372     | आई पॉल राज     | ई एम इ     | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14       | 14 अक्टूबर 16    |
| 48378     | एस नारायणन     | सिग्नल्स   | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14       | 14 अक्टूबर 16    |
| 48388     | जयदीप सिंह     | ए वी एन    | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14       | 14 अक्टूबर 16    |
| 48391     | अनुभव मलिक     | सिग्नल्स   | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14       | 14 अक्टूबर 16    |
| 48394     | कार्तिक बेलवाल | ई एम इ     | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14       | 14 अक्टूबर 16    |

|       |                     |            |               |                  |               |               |
|-------|---------------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 48396 | राजेश ओझा           | ए सी       | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14 | 14 अक्टूबर 16 |
| 48400 | भानु प्रताप         | ए ओ सी     | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14 | 14 अक्टूबर 16 |
| 48409 | प्रफुल्ल कुमार यादव | इंजिनियर्स | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14 | 14 अक्टूबर 16 |
| 48412 | एम वी विजय सिंह     | इ एम ई     | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14 | 14 अक्टूबर 16 |
| 48430 | डी एम मरुर          | ए एस सी    | 14 सितम्बर 14 | एस.एस.सी. 43(टी) | 14 अक्टूबर 14 | 14 अक्टूबर 16 |

पी के सिंह  
ले कर्नल  
एम एस 8बी  
03 जनवरी 2019

सेना शाखा  
नियमित सेना

कोर आफ मिलिट्री पुलिस

सं. 128, दिनांक 9 जनवरी 2019—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

सूबेदार मेजर (सेना पुलिस) के पद में

|         |                  |                      |                |
|---------|------------------|----------------------|----------------|
| सूबेदार | तरसेम लाल        | (जेसी-819519एम)      | 1 जनवरी 2017   |
| सूबेदार | पुरुशोथमन पी     | (जेसी-819530एल)      | 1 फरवरी 2017   |
| सूबेदार | विमल प्रकाश सिंह | (जेसी-819532डब्ल्यू) | 1 फरवरी 2017   |
| सूबेदार | राम पाल          | (जेसी-819570एम)      | 1 फरवरी 2017   |
| सूबेदार | अमरेश कुमार      | (जेसी-819602के)      | 1 मई 2017      |
| सूबेदार | रोहताश           | (जेसी-819636एक्स)    | 1 अक्टूबर 2017 |
| सूबेदार | राम केश          | (जेसी-819646एफ)      | 1 नवम्बर 2017  |

सूबेदार मेजर (लिपिक : एस डी) के पद में

|         |              |                 |               |
|---------|--------------|-----------------|---------------|
| सूबेदार | बासुदेव राउत | (जेसी-819429एल) | 1 अप्रैल 2017 |
| सूबेदार | अभय सिंह     | (जेसी-819430ए)  | 1 जून 2017    |
| सूबेदार | रमेश चन्द्र  | (जेसी-819700के) | 1 जून 2017    |

सूबेदार (सेना पुलिस) के रैंक में

|                                                                                             |                            |                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| नायब सूबेदार                                                                                | सुनील कुमार सिंह दलाल      | (जेसी-819931ए)       | 1 जनवरी 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | जाला बलराम सिंह रणधीर सिंह | (जेसी-819932एच)      | 1 जनवरी 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | अनिल कुमार                 | (जेसी-819933एल)      | 14 जनवरी 2017* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जाती है) |                            |                      |                |
| नायब सूबेदार                                                                                | ईश्वर सिंह                 | (जेसी-819934एन)      | 1 जनवरी 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | सी मुनि रथीनम              | (जेसी-819935डब्ल्यू) | 1 जनवरी 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | माधवेन्द्र कुमार सारस्वत   | (जेसी-819938के)      | 5 जनवरी 2017*  |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जाती है) |                            |                      |                |
| नायब सूबेदार                                                                                | जॉन्नावरापू रमना रेड्डी    | (जेसी-819939एम)      | 1 फरवरी 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | भालेकर संदीपन सोपान        | (जेसी-819940एफ)      | 1 फरवरी 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | सतीश कुमार एस              | (जेसी-819941के)      | 1 फरवरी 2017   |

|                                                                                              |                              |                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| नायब सूबेदार                                                                                 | एस संकरा श्रीनिवासा राव जी   | (जेसी-819942एम)       | 1 फरवरी 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                 | राजेश कुमार सिंह             | (जेसी-819943पी)       | 1 फरवरी 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                 | पटेल महेश भाई दहया भाई       | (जेसी-819944एक्स)     | 1 फरवरी 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                 | राजेन्द्र प्रसाद             | (जेसी-819945ए)        | 1 फरवरी 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                 | जगदीश सुथार                  | (जेसी-(819952डब्ल्यू) | 1 फरवरी 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                 | जीतेन्द्र कुमार बाना         | (जेसी-819953वाई)      | 1 मार्च 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                 | ए मोहन राज                   | (जेसी-819954एफ)       | 1 मार्च 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                 | नन्द किशोर विश्वकर्मा        | (जेसी-819955के)       | 1 मार्च 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                 | हनुमान राम                   | (जेसी-819956एम)       | 3 अप्रैल 2017* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2017 से दी जाती है) |                              |                       |                |
| नायब सूबेदार                                                                                 | अजित कुमार मंडल              | (जेसी-819957पी)       | 1 अप्रैल 2017  |
| नायब सूबेदार                                                                                 | सुरदा लक्ष्मणा राव           | (जेसी-819958एक्स)     | 1 अप्रैल 2017  |
| नायब सूबेदार                                                                                 | रघुवीर सिंह                  | (जेसी-819959ए)        | 1 अप्रैल 2017  |
| नायब सूबेदार                                                                                 | दिलीप कुमार बक्सला           | (जेसी-819960पी)       | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | वादिना राम राव               | (जेसी-819961एक्स)     | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | संजीव कुमार                  | (जेसी-819962ए)        | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | मनिकंधन पी नायर              | (जेसी-819963एच)       | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | नवीन चन्द्र                  | (जेसी-819965एन)       | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | रमा कान्त सिंह               | (जेसी-819966डब्ल्यू)  | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | अशोक कुमार सिंह              | (जेसी-819967वाई)      | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | महेन्द्र यादव                | (जेसी-819968एफ)       | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | कमला सिंह                    | (जेसी-819969के)       | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | आघव आबा पांडुरंगा            | (जेसी-819970वाई)      | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | गंभीर दाना भैम्हाजा भाई      | (जेसी-819974पी)       | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | रतन लाल                      | (जेसी-819975एक्स)     | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | संतोष कुमार                  | (जेसी-819976ए)        | 1 मई 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                 | मातरू यादव                   | (जेसी-819977एच)       | 1 जून 2017     |
| नायब सूबेदार                                                                                 | सुजोय घोष                    | (जेसी-819978एल)       | 1 जून 2017     |
| नायब सूबेदार                                                                                 | नन्द किशोर सिंह              | (जेसी-819979एन)       | 1 जून 2017     |
| नायब सूबेदार                                                                                 | म्वंथिगिरी नर्जरी            | (जेसी-819980एच)       | 1 जून 2017     |
| नायब सूबेदार                                                                                 | बीजू एम अब्राहम              | (जेसी-819981एल)       | 1 जून 2017     |
| नायब सूबेदार                                                                                 | राजेन्द्र सिंह चौहान         | (जेसी-819982एन)       | 1 जून 2017     |
| नायब सूबेदार                                                                                 | शाजी चेनियांतियिल परयिक्कंदी | (जेसी-819983डब्ल्यू)  | 1 जून 2017     |
| नायब सूबेदार                                                                                 | सुदानंदा पी                  | (जेसी-819984वाई)      | 12 जून 2017*   |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2017 से दी जाती है)    |                              |                       |                |
| नायब सूबेदार                                                                                 | संतोष कुमार पाठक             | (जेसी-819985एफ)       | 1 जून 2017     |
| नायब सूबेदार                                                                                 | योगेन्द्र प्रसाद             | (जेसी-819986के)       | 1 जून 2017     |
| नायब सूबेदार                                                                                 | मिंटु कुमार सामंता           | (जेसी-819987एम)       | 1 जून 2017     |
| नायब सूबेदार                                                                                 | सुनील कुमार यादव             | (जेसी-819988पी)       | 5 जुलाई 2017*  |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2017 से दी जाती है)  |                              |                       |                |
| नायब सूबेदार                                                                                 | बलत्तर सिंह यादव             | (जेसी-819989एक्स)     | 1 जुलाई 2017   |

|                                                                                             |                               |                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| नायब सूबेदार                                                                                | निर्मल कुमार                  | (जेसी-819990एम)      | 1 जुलाई 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | रविन्दर कुमार                 | (जेसी-819991पी)      | 1 जुलाई 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | उमा शंकर यादव                 | (जेसी-819992एक्स)    | 1 जुलाई 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | सेखावत भवानी सिंह भागीरथ सिंह | (जेसी-819993ए)       | 1 जुलाई 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | रणबीर प्रसाद सिंह             | (जेसी-819994एच)      | 1 जुलाई 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | लाल बहादुर यादव               | (जेसी-819995एल)      | 1 जुलाई 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | मुनिरथिनम के                  | (जेसी-819996एन)      | 5 जुलाई 2017*  |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2017 से दी जाती है) |                               |                      |                |
| नायब सूबेदार                                                                                | बिजेन्दर सिंह                 | (जेसी-819997डब्ल्यू) | 1 जुलाई 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | हरी प्रकाश यादव               | (जेसी-819998वाई)     | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | संजय कुमार समल                | (जेसी-819999एफ)      | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | आर पी संधना कृष्णन            | (जेसी-820000एच)      | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | ओम प्रकाश प्रसाद              | (जेसी-820001एल)      | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | नन्द लाल राम                  | (जेसी-820002एन)      | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | येडुरु रामा कृष्णा            | (जेसी-820003डब्ल्यू) | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | साइना पुरम लक्ष्मा रेड्डी     | (जेसी-820004वाई)     | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | ओम प्रकाश                     | (जेसी-820005एफ)      | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | अशोक कुमार यादव               | (जेसी-820006के)      | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | बी हरी                        | (जेसी-820007एम)      | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | बिरदी लाल मीना                | (जेसी-820009एक्स)    | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | नरेन्द्र कुमार                | (जेसी-820010एम)      | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | मनोज कुमार पांडे              | (जेसी-820011पी)      | 1 अगस्त 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                | मसीह होरो                     | (जेसी-820012एक्स)    | 1 सितम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | जगदीश चंदर                    | (जेसी-820013ए)       | 1 सितम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | महेन्द्र उपाध्याय             | (जेसी-820015एल)      | 1 सितम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | कमलेश प्रसाद मिश्रा           | (जेसी-820016एन)      | 1 सितम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | प्रकाश रंजन राय               | (जेसी-820017डब्ल्यू) | 1 सितम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | अरुण कुमार उपाध्या            | (जेसी-820018वाई)     | 1 सितम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | कृष्ण कान्त ओझा               | (जेसी-820019एफ)      | 1 सितम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | चन्द्र सेकरन ए                | (जेसी-820021वाई)     | 1 सितम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | आर सी मधुसूदनन पिल्लई         | (जेसी-820022एफ)      | 1 सितम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | दिबाकर दास                    | (जेसी-820023के)      | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | रमेश एस                       | (जेसी-820024एम)      | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | राजेन्द्र सिंह                | (जेसी-820025पी)      | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | देबाब्रता दास                 | (जेसी-820026एक्स)    | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | राजू शर्मा                    | (जेसी-820027ए)       | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | जीतेन्द्र शर्मा               | (जेसी-820028एच)      | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | मनोज कुमार ठाकुर              | (जेसी-820029एल)      | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार                                                                                | राजेश कुमार                   | (जेसी-820030ए)       | 1 अक्टूबर 2017 |

|              |                         |                      |                |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| नायब सूबेदार | गंगा दत्त मेलकानी       | (जेसी-820032एल)      | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार | पबित्रा कुमार भौमिक     | (जेसी-820034डब्ल्यू) | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार | अमरजीत थापर             | (जेसी-820035वाई)     | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार | रमेश चंद                | (जेसी-820036एफ)      | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार | संजय कुमार राय          | (जेसी-820037के)      | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार | व्यास सिंह              | (जेसी-820038एम)      | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार | सुरेश कुमार             | (जेसी-820040के)      | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार | किशोर राय               | (जेसी-820041एम)      | 1 अक्टूबर 2017 |
| नायब सूबेदार | सुप्रकाश बेरा           | (जेसी-820042पी)      | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | वी रामु                 | (जेसी-820043एक्स)    | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | अरुण भार्यवाल           | (जेसी-820044ए)       | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | बीराम सिंह              | (जेसी-820045एच)      | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | मृतुन्जय देबे           | (जेसी-820046ए)       | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | राजेन्द्र कुमार कुशवाहा | (जेसी-820048डब्ल्यू) | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | राम राजा यादव           | (जेसी-820049वाई)     | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | कृष्णा कुमार एम         | (जेसी-820050एन)      | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | परदीप कुमार सिंह        | (जेसी-820051डब्ल्यू) | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | एम राज शेखर बाबू        | (जेसी-820052वाई)     | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | मनोज कुमार तिवारी       | (जेसी-820053एफ)      | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | कशमीर सिंह              | (जेसी-820054के)      | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | मो. लोकमान हिकिम खान    | (जेसी-820055एम)      | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | एन कृष्णन               | (जेसी-820056पी)      | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | टी एम रजिवाक्षन         | (जेसी-820057एक्स)    | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | पवन कुमार               | (जेसी-820058ए)       | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | मकसुद अली               | (जेसी-820059एच)      | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | सुरेश कुमार समल         | (जेसी-820060एक्स)    | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | बढ़ाते नितिन नाथु       | (जेसी-820061ए)       | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | दिवाकर कुमार सिंह       | (जेसी-820062एच)      | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | सरवन सिंह यादव          | (जेसी-820063एल)      | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | महेश यादव               | (जेसी-820064एन)      | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | सुभाष चन्द्र प्रुस्ति   | (जेसी-820065डब्ल्यू) | 1 नवम्बर 2017  |
| नायब सूबेदार | गुरव सुरेशा अर्जुना     | (जेसी-820066वाई)     | 1 दिसम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार | पारित विथल गणपति        | (जेसी-820067एफ)      | 1 दिसम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार | दामोदर प्रधान           | (जेसी-820068के)      | 1 दिसम्बर 2017 |

सूबेदार (लिपिक : एस डी) के पद में

|                                                                                               |                   |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| नायब सूबेदार                                                                                  | जसवंत सिंह कासवान | (जेसी-819811एफ) | 1 मार्च 2017   |
| नायब सूबेदार                                                                                  | पी वेंकटा कृष्णन  | (जेसी-819833ए)  | 12 अप्रैल 2017 |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन भर्त्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2017 से दी जाती है) |                   |                 |                |
| नायब सूबेदार                                                                                  | सजीव कुमार वी     | (जेसी-819853एन) | 1 अप्रैल 2017  |

|                                                                                               |                       |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार                                                                                  | पी मथियाझहान          | (जेसी-819889एम)   | 1 मई 2017       |
| नायब सूबेदार                                                                                  | के रामनुजम            | (जेसी-819913एक्स) | 1 जून 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                  | अगवाने विठ्ठल रोहिदास | (जेसी-819914ए)    | 1 जून 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                  | रत्तन लाल             | (जेसी-819936वाई)  | 1 जून 2017      |
| नायब सूबेदार                                                                                  | प्रदीप पॉल            | (जेसी-819937एफ)   | 30 जून 2017*    |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2017 से दी जाती है)     |                       |                   |                 |
| नायब सूबेदार                                                                                  | मोहम्मद असलम          | (जेसी-820031एच)   | 4 अक्टूबर 2017* |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2017 से दी जाती है) |                       |                   |                 |
| नायब सूबेदार                                                                                  | नरेश कुमार            | (जेसी-819946एच)   | 1 अक्टूबर 2017  |
| नायब सूबेदार                                                                                  | जसबीर सिंह            | (जेसी-819947एल)   | 1 अक्टूबर 2017  |

## नायब सूबेदार (सेना पुलिस) के रैंक में

|                                                                                                  |                              |                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| हवलदार                                                                                           | नेक राम                      | (सं. 7777551वाई अब जेसी-820271ए)       | 1 जनवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | काली दोस्स डी                | (सं. 7777554एम अब जेसी-820272एच)       | 2 जनवरी 2017* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जाती है) |                              |                                        |               |
| हवलदार                                                                                           | लक्ष्मी कान्त दिवान          | (सं. 7777563एन अब जेसी-820273एल)       | 1 जनवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | बिपिन बिहारी लेंका           | (सं. 7777564डब्ल्यू अब जेसी-820274एन)  | 1 जनवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | अनिल कुमार सिंह              | (सं. 7777565वाई अब जेसी-820275डब्ल्यू) | 2 जनवरी 2017* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2017 से दी जाती है) |                              |                                        |               |
| हवलदार                                                                                           | संजय कुमार                   | (सं. 7777567के अब जेसी-820276वाई)      | 1 जनवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | प्रकाश चन्द्र चौधरी          | (सं. 7777569पी अब जेसी-820277एफ)       | 1 फरवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | एस सतीश कुमार                | (सं. 7777571एम अब जेसी-820278के)       | 1 फरवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | कैलाश चन्द्र                 | (सं. 7777574ए अब जेसी-820279एम)        | 1 फरवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | पटेल कलपेश कुमार प्रेमजी भाई | (सं. 7777575एच अब जेसी-820280एफ)       | 1 फरवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | राकेश कुमार                  | (सं. 7777577एन अब जेसी-820281के)       | 1 फरवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | नवीन कुमार तिवारी            | (7777579वाई अब जेसी-820282एम)          | 1 फरवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | रंजन कुमार सिंह              | (सं. 7777584के अब जेसी-820283पी)       | 1 फरवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | बलाप्पा सुतागट्टी            | (सं. 7777587एक्स अब जेसी-820284एक्स)   | 1 फरवरी 2017  |
| हवलदार                                                                                           | गिरीश वी                     | (सं. 7777588ए अब जेसी-820286एच)        | 1 मार्च 2017  |
| हवलदार                                                                                           | सुधीश के वी                  | (सं. 7777602एफ अब जेसी-820287एल)       | 1 मार्च 2017  |
| हवलदार                                                                                           | चिवाते चन्द्र कान्त जी       | (सं. 7777603के अब जेसी-820288एन)       | 1 मार्च 2017  |
| हवलदार                                                                                           | ए युगन्दर नायडू              | (सं. 7777607ए अब जेसी-820289डब्ल्यू)   | 1 मार्च 2017  |
| हवलदार                                                                                           | पवार सुनील शामाराव           | (सं. 7777610ए अब जेसी-820292डब्ल्यू)   | 1 अप्रैल 2017 |
| हवलदार                                                                                           | श्रीनिवासुलु जे              | (सं. 7777611एच अब जेसी-820293वाई)      | 1 अप्रैल 2017 |
| हवलदार                                                                                           | रक्षाकर पाल                  | (सं. 7777568एम अब जेसी-820294एफ)       | 1 अप्रैल 2017 |
| हवलदार                                                                                           | कमरुद्दीन कठट                | (सं. 7777493ए अब जेसी-820295के)        | 1 अप्रैल 2017 |
| हवलदार                                                                                           | कृष्ण कुमार सिंह             | (सं. 7777615वाई अब जेसी-820296एम)      | 1 अप्रैल 2017 |
| हवलदार                                                                                           | सिस्ती वी सत्यनागेश          | (सं. 7777616एफ अब जेसी-820297पी)       | 1 अप्रैल 2017 |
| हवलदार                                                                                           | इरोम संजु सिंह               | (सं. 7783678एक्स अब जेसी-820299ए)      | 1 मई 2017     |
| हवलदार                                                                                           | अनंदा राज एम                 | (सं. 7777620के अब जेसी-820300के)       | 1 मई 2017     |

|                                                                                                |                           |                                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| हवलदार                                                                                         | राज बहादुर                | (सं. 7777626एल अब जेसी-820301एम)        | 1 मई 2017    |
| हवलदार                                                                                         | हनमथ सत्ता रड्डी          | (सं. 7777632वाई अब जेसी-820302पी)       | 1 मई 2017    |
| हवलदार                                                                                         | राजेश कुमार सिंह          | (सं. 7777633एफ अब जेसी-820303एक्स)      | 8 मई 2017    |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2017 से दी जाती है)  |                           |                                         |              |
| हवलदार                                                                                         | अजय कुमार सिंह            | (सं. 7777638ए अब जेसी-820304ए)          | 1 मई 2017    |
| हवलदार                                                                                         | जगदीश                     | (सं. 7777639एच अब जेसी-820305एच)        | 1 मई 2017    |
| हवलदार                                                                                         | लक्ष्मी चरण पंडा          | (सं. 7777640एक्स अब जेसी-820306एल)      | 1 मई 2017    |
| हवलदार                                                                                         | पित्तला श्रीनिवासा रेड्डी | (सं. 7777317एच अब जेसी-820307एन)        | 1 मई 2017    |
| हवलदार                                                                                         | मार्कण्डे पांडे           | (सं. 7777605पी अब जेसी-820308डब्ल्यू)   | 1 मई 2017    |
| हवलदार                                                                                         | उन्नी कृष्णन पी के        | (सं. 7777608एच अब जेसी-820309वाई)       | 11 मई 2017   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2017 से दी जाती है)  |                           |                                         |              |
| हवलदार                                                                                         | धीरेन्द्र कुमार पत्रा     | (सं. 7777614डब्ल्यू अब जेसी-820310एन)   | 1 मई 2017    |
| हवलदार                                                                                         | मनोज कुमार सिंह           | (सं. 7777647एफ अब जेसी-820311डब्ल्यू)   | 1 मई 2017    |
| हवलदार                                                                                         | अरुण कुमार सिंह           | (सं. 7777648के अब जेसी-820316पी)        | 1 जून 2017   |
| हवलदार                                                                                         | बिनदेश्वर कुमार           | (सं. 7777650एफ अब जेसी-820317एक्स)      | 1 जून 2017   |
| हवलदार                                                                                         | मंजीत सिंह                | (सं. 7777654एक्स अब जेसी-820318ए)       | 1 जून 2017   |
| हवलदार                                                                                         | सजिमोन पी एम              | (सं. 7777672ए अब जेसी-820319एच)         | 1 जून 2017   |
| हवलदार                                                                                         | मनोज कुमार                | (सं. 7777673एच अब जेसी-820320एक्स)      | 1 जून 2017   |
| हवलदार                                                                                         | रजिन्दर सिंह              | (सं. 7777675एन अब जेसी-820321ए)         | 1 जून 2017   |
| हवलदार                                                                                         | कीलु कृष्णा राव           | (सं. 7777679के अब जेसी-820322एच)        | 1 जून 2017   |
| हवलदार                                                                                         | रसल भीमा राव बाबु राव     | (सं. 7777694वाई अब जेसी-820323एल)       | 1 जून 2017   |
| हवलदार                                                                                         | सुभाष चन्द्र यादव         | (सं. 7777695एफ अब जेसी-820324एन)        | 2 जून 2017   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2017 से दी जाती है) |                           |                                         |              |
| हवलदार                                                                                         | पाले महादेव दशरथ          | (सं. 7777698पी अब जेसी-820325डब्ल्यू)   | 1 जून 2017   |
| हवलदार                                                                                         | ईश्वर चन्द यादव           | (सं. 7777699एक्स अब जेसी-820326वाई)     | 1 जून 2017   |
| हवलदार                                                                                         | राज देव                   | (सं. 7777635एम अब जेसी-820327एफ)        | 1 जुलाई 2017 |
| हवलदार                                                                                         | विजई प्रकाश राय           | (सं. 7777659डब्ल्यू अब जेसी-820328के)   | 1 जुलाई 2017 |
| हवलदार                                                                                         | प्रताप नारायण शुक्ला      | (सं. 7777678एफ अब जेसी-820329एम)        | 1 जुलाई 2017 |
| हवलदार                                                                                         | संदीप कुमार झा            | (सं. 7777710एल अब जेसी-820330एफ)        | 1 जुलाई 2017 |
| हवलदार                                                                                         | गौतम मंडल                 | (सं. 7777715के अब जेसी-820331के)        | 1 जुलाई 2017 |
| हवलदार                                                                                         | प्रताप पत्रा              | (सं. 7777719ए अब जेसी-820332एम)         | 1 जुलाई 2017 |
| हवलदार                                                                                         | बीरपाल सिंह               | (सं. 7777720पी अब जेसी-820333पी)        | 1 जुलाई 2017 |
| हवलदार                                                                                         | गरिकपाटी श्रीनिवासा राव   | सं. (7777727वाई अब जेसी-820334एक्स)     | 1 जुलाई 2017 |
| हवलदार                                                                                         | वेंकटा रेड्डी सोरेड्डी    | (सं. 7777728एफ अब जेसी-820335ए)         | 1 जुलाई 2017 |
| हवलदार                                                                                         | दिनेश कुमार सिंह          | (सं. 7777745एफ अब जेसी-820336एच)        | 1 जुलाई 2017 |
| हवलदार                                                                                         | रन विजय सिंह              | (सं. 7777746के अब जेसी-820337एल)        | 1 जुलाई 2017 |
| हवलदार                                                                                         | बलजिन्दर सिंह चीमा        | (सं. 7777751पी अब जेसी-820338एन)        | 1 अगस्त 2017 |
| हवलदार                                                                                         | इंदरजीत सिंह बलोदा        | (सं. 7777752एक्स अब जेसी-820339डब्ल्यू) | 1 अगस्त 2017 |
| हवलदार                                                                                         | सरद कुमार राय             | (सं. 7777753ए अब जेसी-820340एल)         | 1 अगस्त 2017 |

|                                                                                                    |                           |                                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| हवलदार                                                                                             | चिन्ना नरसिम्हलू के       | (सं. 7777755एल अब जेसी-820341एन)        | 1 अगस्त 2017    |
| हवलदार                                                                                             | पुरनमल तेतरवाल            | (सं. 7777756एन अब जेसी-820342डब्ल्यू)   | 1 अगस्त 2017    |
| हवलदार                                                                                             | यश पाल                    | (सं. 7777761वाई अब जेसी-820343वाई)      | 1 अगस्त 2017    |
| हवलदार                                                                                             | धनी राम                   | (सं. 7777768एच अब जेसी-820344एफ)        | 1 अगस्त 2017    |
| हवलदार                                                                                             | यल्लप्पा पवाशे            | (सं. 7777779पी अब जेसी-820345के)        | 1 अगस्त 2017    |
| हवलदार                                                                                             | जीवन सिंह                 | (सं. 7777787एन अब जेसी-820346एम)        | 1 अगस्त 2017    |
| हवलदार                                                                                             | जीतेन्द्र कुमार सिंह      | (सं. 7777788डब्ल्यू अब जेसी-820347पी)   | 1 अगस्त 2017    |
| हवलदार                                                                                             | जिगन शिवप्पा रामा         | (सं. 7777789वाई अब जेसी-820348एक्स)     | 1 अगस्त 2017    |
| हवलदार                                                                                             | राज कुमार                 | (सं. 7777790एन अब जेसी-820349ए)         | 1 अगस्त 2017    |
| हवलदार                                                                                             | अशोक कुमार यादव           | (सं. 7777754एच अब जेसी-820350पी)        | 1 अगस्त 2017    |
| हवलदार                                                                                             | विनोद सिंह                | (सं. 7777758वाई अब जेसी-820352ए)        | 1 सितम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | गोसावी गौतमगीर रमेश गौर   | (सं. 7777766एक्स अब जेसी-820353एच)      | 1 सितम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | कुना गोविंदा राजु         | (सं. 7777749एक्स अब जेसी-820354एल)      | 1 सितम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | संजय कुमार यादव           | (सं. 7777697एम अब जेसी-820355एन)        | 1 सितम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | गुम्मादी चन्द्र सेखरा राव | (सं. 7777759एफ अब जेसी-820356डब्ल्यू)   | 1 सितम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | जी सिवा रेड्डी            | (सं. 7777792वाई अब जेसी-820357वाई)      | 4 अक्टूबर 2017  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2017 से दी जाती है) |                           |                                         |                 |
| हवलदार                                                                                             | ओमकार सिंह                | (सं. 7777803ए अब जेसी-820358एफ)         | 1 सितम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | विसर्जन सिंह यादव         | (सं. 7777805एल अब जेसी-820359के)        | 1 सितम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | राजेश कुमार मिश्रा        | (सं. 7777806एन अब जेसी-820360वाई)       | 18 सितम्बर 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2017 से दी जाती है) |                           |                                         |                 |
| हवलदार                                                                                             | राम कुमार सिंह            | (सं. 7777721एक्स अब जेसी-820361एफ)      | 1 अक्टूबर 2017  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2017 से दी जाती है)   |                           |                                         |                 |
| हवलदार                                                                                             | राजेन्द्र कुमार साहु      | (सं. 7777807डब्ल्यू अब जेसी-820365एक्स) | 1 नवम्बर 2017   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2017 से दी जाती है) |                           |                                         |                 |
| हवलदार                                                                                             | एस निदेश कुमार            | (सं. 7777808वाई अब जेसी-820366ए)        | 5 अक्टूबर 2017  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2017 से दी जाती है) |                           |                                         |                 |
| हवलदार                                                                                             | दिलीप कुमार सोनी          | (सं. 7777809एफ अब जेसी-820367एच)        | 1 अक्टूबर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | राजेश कुमार               | (सं. 7777812एफ अब जेसी-820368एल)        | 1 अक्टूबर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | संजय कुमार मिश्रा         | (सं. 7777814एम अब जेसी-820369एन)        | 7 अक्टूबर 2017  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2017 से दी जाती है) |                           |                                         |                 |
| हवलदार                                                                                             | रामाचल सिंह               | (सं. 7777816एक्स अब जेसी-820370एच)      | 1 अक्टूबर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | संजय कुमार पांडे          | (सं. 7777818एच अब जेसी-820371एल)        | 1 अक्टूबर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | सुनील कुमार               | (सं. 7777821एच अब जेसी-820372एन)        | 1 अक्टूबर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | सत्य नारायण गुर्जर        | (सं. 7777823एन अब जेसी-820373डब्ल्यू)   | 1 अक्टूबर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | लाल भाया राजपुत           | (सं. 7777824डब्ल्यू अब जेसी-820374वाई)  | 1 अक्टूबर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | मैनुदीन                   | (सं. 7777826एफ अब जेसी-820375एफ)        | 3 अक्टूबर 2017  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2017 से दी जाती है) |                           |                                         |                 |
| हवलदार                                                                                             | रामराज गुर्जर             | (सं. 7777827के अब जेसी-820376के)        | 1 अक्टूबर 2017  |

|                                                                                                    |                        |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| हवलदार                                                                                             | दिलीप कुमार सिंह       | (सं. 7777828एम अब जेसी-820377एम)        | 1 अक्टूबर 2017 |
| हवलदार                                                                                             | श्यामा कान्त सिंह      | (सं. 7777837एन अब जेसी-820378पी)        | 3 अक्टूबर 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2017 से दी जाती है) |                        |                                         |                |
| हवलदार                                                                                             | सुधीर नायक             | (सं. 7777833एक्स अब जेसी-820379एक्स)    | 1 अक्टूबर 2017 |
| हवलदार                                                                                             | एस के नजीर             | (सं. 7777838डब्ल्यू अब जेसी-820380एम)   | 2 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | रमेश कुमार तिवारी      | (सं. 7777905डब्ल्यू अब जेसी-820381पी)   | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | विष्णु पादा मोहापात्रा | (सं. 7777907एफ अब जेसी-820382एक्स)      | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | बिजय कुमार             | (सं. 7777909एम अब जेसी-820383ए)         | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | प्रवीण कुमार के        | (सं. 7777910एफ अब जेसी-820384डब्ल्यू)   | 2 नवम्बर 2017  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2017 से दी जाती है)  |                        |                                         |                |
| हवलदार                                                                                             | ससी डी                 | (सं. 7777913पी अब जेसी-820385एल)        | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | मुकेश कुमार दुबे       | (सं. 7777817ए अब जेसी-820386एन)         | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | सांथा कुमार आर         | (सं. 7777839वाई अब जेसी-820387डब्ल्यू)  | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | तिलक राज               | (सं. 7777842वाई अब जेसी-820388वाई)      | 2 नवम्बर 2017  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2017 से दी जाती है)  |                        |                                         |                |
| हवलदार                                                                                             | दिब्बाग सिंह           | (सं. 7777843एफ अब जेसी-820389एफ)        | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | दिलीप कुमार            | (सं. 7777844के अब जेसी-820390डब्ल्यू)   | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | राजेश कुमार मिश्रा     | (सं. 7777852एच अब जेसी-820391वाई)       | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | कतकार जोतीराम विठ्ठल   | (सं. 7777857एफ अब जेसी-820392एफ)        | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | जय प्रकाश त्रिपाठी     | (सं. 7777858के अब जेसी-820393के)        | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | संतोष कुमार            | (सं. 7777786एल अब जेसी-820394एम)        | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | मुनीश कुमार श्रीवास्तव | (सं. 7777785एच अब जेसी-820395पी)        | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | संतोष कुमार            | (सं. 7777802एक्स अब जेसी-820396एक्स)    | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | राजेश सिंह             | (सं. 7777863पी अब जेसी-820397ए)         | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | रवि भूषण कुमार         | (सं. 7777866एच अब जेसी-820398एच)        | 3 नवम्बर 2017  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2017 से दी जाती है)  |                        |                                         |                |
| हवलदार                                                                                             | विक्रम सिंह            | (सं. 7777890वाई अब जेसी-820399एल)       | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | मयनाथ गौरी             | (सं. 7777851ए अब जेसी-820400पी)         | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | रामा राम               | (सं. 7777869डब्ल्यू अब जेसी-820401एक्स) | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | भंवर लाल सिरोही        | (सं. 7777868एन अब जेसी-820402ए)         | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | राज कुमार              | (सं. 7777888एफ अब जेसी-820403एच)        | 1 नवम्बर 2017  |
| हवलदार                                                                                             | कुंवर बहादुर सिंह      | (सं. 7777895एक्स अब जेसी-820404एल)      | 1 दिसम्बर 2017 |
| हवलदार                                                                                             | प्रदीप कुमार           | (सं. 7777284एच अब जेसी-820405एन)        | 1 दिसम्बर 2017 |
| हवलदार                                                                                             | फूल चंद                | (सं. 7777867एल अब जेसी-820406डब्ल्यू)   | 1 दिसम्बर 2017 |
| नायब सूबेदार (लिपिक : एस डी) के पद में                                                             |                        |                                         |                |
| हवलदार                                                                                             | राजेश कुमार            | (सं. 7780342एम अब जेसी-820285ए)         | 1 मार्च 2017   |
| हवलदार                                                                                             | तिलक राज               | (सं. 7780345ए अब जेसी-820290एल)         | 1 अप्रैल 2017  |
| हवलदार                                                                                             | बिजोन कुमार मंडल       | (सं. 7780351एन अब जेसी-820291एन)        | 1 अप्रैल 2017  |

|        |                          |                                         |                |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| हवलदार | टोमके अमर दिनकर          | (सं. 7780402डब्ल्यू अब जेसी-820298एक्स) | 1 मई 2017      |
| हवलदार | संजय कुमार पांडे         | (सं. 7780405के अब जेसी-820312वाई)       | 1 जून 2017     |
| हवलदार | नवास बाबु पी             | (सं. 7780430एच अब जेसी-820313एफ)        | 1 जून 2017     |
| हवलदार | मदन कुमार                | (सं. 7780435एफ अब जेसी-820314के)        | 1 जून 2017     |
| हवलदार | रमेश कुमार               | (सं. 7780472पी अब जेसी-820315एम)        | 1 जून 2017     |
| हवलदार | पीरा राम चौधरी           | (सं. 7780499एम अब जेसी-820351एक्स)      | 1 सितम्बर 2017 |
| हवलदार | दीपक कुमार शर्मा         | (सं. 7780610एल अब जेसी-820362के)        | 1 अक्टूबर 2017 |
| हवलदार | तवर प्रदीप सिंह रतन सिंह | (सं. 7780612डब्ल्यू अब जेसी-820363एम)   | 1 अक्टूबर 2017 |
| हवलदार | अनिल कुमार               | (सं. 7780615के अब जेसी-820364पी)        | 1 अक्टूबर 2017 |

प्रशांत राव टी.डी.

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 129, दिनांक 10 जनवरी 2019—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

आसूचना कोर

नायब सूबेदार (इन्ट जी डी) के पद पर

| रैंक                                                                                                 | नाम                 | आर्मी नं        | जेसी नं            | पदोन्नति की तारीख               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                    | बिनय कुमार          | १३६९८९००पी      | जेसी-८१२५७७एन      | ३० जून २०१८<br>०१ दिसम्बर २०१७* |
| * नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता ०१ दिसम्बर २०१७ से दी जाती है । |                     |                 |                    |                                 |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                    | दिन बन्धु राय       | १४४२७०९४डब्ल्यू | जेसी-८१२५७८डब्ल्यू | २५ जुलाई २०१८<br>०१ जुलाई २०१८* |
| * नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता ०१ जुलाई २०१८ से दी जाती है ।   |                     |                 |                    |                                 |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                    | आर लालछन्दमा        | ४३६७२६४एल       | जेसी-८१२५७९वाई     | ०२ जुलाई २०१८<br>०१ जुलाई २०१८* |
| * नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता ०१ जुलाई २०१८ से दी जाती है ।   |                     |                 |                    |                                 |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                    | नोरेम सक्क्याई सिंह | ७४३१३१५ए        | जेसी-८१२५८०एन      | ०२ जुलाई २०१८<br>०१ जुलाई २०१८* |
| * नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता ०१ जुलाई २०१८ से दी जाती है ।   |                     |                 |                    |                                 |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                    | संतोष कुमार         | ३९८६५२७पी       | जेसी-८१२५८०वाई     | १४ अगस्त २००८                   |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                    | चरण सिंह यादव       | ४५७०७०३ए        | जेसी-८१२५८३एफ      | ०१ अगस्त २०१८                   |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                    | नितेश रघुवंशी       | १४९२५६९७डब्ल्यू | जेसी-८१२५८४के      | ०१ अगस्त २०१८                   |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                    | चतुर सिंह           | १४४२७९६०एम      | जेसी-८१२५८५एम      | ०१ अगस्त २०१८                   |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                    | पी अशोक कुमार       | १४४२८०२३एफ      | जेसी-८१२५८६पी      | ०१ अगस्त २०१८                   |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                    | दक्षनारायण मन्ना    | १५१३७३६३एच      | जेसी-८१२५८७एक्स    | ०१ अगस्त २०१८                   |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                    | जेयासैथिल वी        | २६०२३८३ए        | जेसी-८१२५८८ए       | ०६ अगस्त २०१८<br>०१ अगस्त २०१८* |
| * नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता ०१ अगस्त २०१८ से दी जाती है ।   |                     |                 |                    |                                 |

|                                                                                                    |                  |             |                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                  | फारूक मोहम्मद    | १३६९८९५६एफ  | जेसी-८१२५८९एच    | ०६ अगस्त २०१८<br>०१ अगस्त २०१८* |
| * नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता ०१ अगस्त २०१८ से दी जाती है । |                  |             |                  |                                 |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                  | योगेश सिंह       | ४५७०३२२एच   | जेसी-८१२५९०एक्स  | ०१ अगस्त २०१८                   |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                  | संजय कुमार       | १५१३७४३२एन  | जेसी-८१२५९१ए     | ०१ अगस्त २०१८                   |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                  | जाधव ददसो विष्णु | १५४७६५९६वाई | जेसी-८१२५९२एच    | ०२ अगस्त २०१८<br>०१ अगस्त २०१८* |
| * नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता ०१ अगस्त २०१८ से दी जाती है । |                  |             |                  |                                 |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                  | एलुमलाई एस.      | १४६४०८९०एफ  | जेसी-८१२५९३एल    | १० अगस्त २०१८<br>०१ अगस्त २०१८* |
| * नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता ०१ अगस्त २०१८ से दी जाती है । |                  |             |                  |                                 |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                  | जोखु लाल पटेल    | १४६४१२५२पी  | जेसी-८१२५९४एन    | १० अगस्त २०१८<br>०१ अगस्त २०१८* |
| * नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता ०१ अगस्त २०१८ से दी जाती है । |                  |             |                  |                                 |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                  | विनय कुमार       | १५६११२८८पी  | जेसी-८१२५९५डब्लू | ०१ सितम्बर २०१८                 |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                  | जगदीश मौर्य      | १४६४१२४९पी  | जेसी-८१२५९६वाई   | ०१ सितम्बर २०१८                 |
| हवलदार/इन्ट जी डी                                                                                  | मोहन चंद्र       | ५१९३२६४वाई  | जेसी-८१२५९७एफ    | ०१ सितम्बर २०१८                 |

सुनील कुमार शर्मा  
ले. कर्नल  
जी.एस.ओ. 1, एम.आई.-20

#### सेना शाखा

सं. 130, दिनांक 11 जनवरी 2019—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

#### प्रादेशिक सेना सेवानिवृत्ति

कर्नल एच आर एस राणा (टीए-42385) (इन्फैन्ट्री) 30 अप्रैल 2018  
कर्नल वी पी सेगन (टीए-42149) (इन्फैन्ट्री) 30 जून 2018

सुदर्शन कुमार  
अवर सचिव

#### सेना शाखा

सं. 131, दिनांक 14 जनवरी 2019—राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64 के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उसकी आयु 40 वर्ष होने तक दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये।

#### नियमित सेना

सेवा मुक्ति : अल्प सेवा आयोग अधिकारी

|                    |             |             |                     |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------|
| एस एस/डब्लू एस सं. | नाम         | आर्म/सर्विस | सेवा मुक्ति की तिथि |
| डब्लूएस 01068एन    | अदिति शर्मा | ईएमई        | 07 जुलाई 2017       |

|                 |                              |         |                |
|-----------------|------------------------------|---------|----------------|
| डब्लूएस 01432एफ | निवेदिता                     | एओसी    | 18 नवंबर 2017  |
| एसएस-41994एफ    | रमाकान्त आर                  | आर्टी   | 15 अप्रैल 2016 |
| एसएस-41173एम    | मसराम नगेन्द्र सिंग श्यामराव | सिग्नलस | 14 जून 2015    |
| एसएस-44431एम    | भालेराव के एम                | एएडी    | 25 मई 2016     |

राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64 के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उसकी आयु 40 वर्ष होने तक दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये।

#### नियमित सेना

सेवा मुक्ति : अल्प सेवा आयोग अधिकारी

| एस एस/डब्लू एस सं.  | नाम                 | आर्म/सर्विस | सेवा मुक्ति की तिथि |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| एसएस-39399वाइ       | आशीष गुरुंग         | इंफैं       | 01 सितंबर 2015      |
| एसएस-39098पी        | साईमन पीटर ऐलकजेंडर | आर्टी       | 29 मई 2015          |
| एसएस-44168एम        | केआसी प्रताप        | आर्टी       | 16 अक्टूबर 2015     |
| डब्लूएस 01025वाइ    | आशा भारद्वाज        | एओसी        | 16 अप्रैल 2015      |
| डब्लूएस 01105 डब्लू | कौसकिया शाविका रमेश | इंजिनीयर    | 15 अक्टूबर 2015     |
| डब्लूएस 01493वाइ    | अनुराधा             | एससी        | 29 अगस्त 2015       |

राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64 के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उसकी आयु 40 वर्ष होने तक दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये।

#### नियमित सेना

सेवा मुक्ति : अल्प सेवा आयोग अधिकारी

| एस एस/डब्लू एस सं. | नाम                  | आर्म/सर्विस | सेवा मुक्ति की तिथि |
|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| डब्लूएस.01020ए     | खोत पूनम जय प्रकाश   | एस सी       | 29 अगस्त 2016       |
| डब्लूएस .00619एफ   | शुभदा नाईक           | इंठ         | 21 जनवरी 2016       |
| डब्लूएस 01196.एल   | प्रज्ञा जोशी         | इंठ         | 13 जून 2016         |
| डब्लूएस .01175पी   | कोले अमृता बालासाहेब | अेअडी       | 09 जून 2016         |
| डब्लूएस .01213ए    | ईशा यादव             | एओसी        | 18 अक्टूबर 2016     |

राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64 के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उसकी आयु 40 वर्ष होने तक दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये।

#### नियमित सेना

सेवा मुक्ति : अल्प सेवा आयोग अधिकारी

| एस एस/डब्लू एस सं. | नाम                  | आर्म/सर्विस | सेवा मुक्ति की तिथि |
|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| डब्लूएस.01288एक्स  | निधि चन्देल          | इंजिनीयर    | 18 सितंबर 2018      |
| डब्लूएस.01206के    | संध्या लक्ष्मी उलापू | इंजिनीयर    | 12 जून 2018         |
| डब्लूएस.01526वाइ   | रमा राजेन्द्रन       | इंठ         | 28 मार्च 2018       |
| एसएस.46330एक्स     | लोकेश हुड्डा         | सिग्नलस     | 11 जून 2018         |
| एसएस.46232एक्स     | आद्रश नायर एम        | एसि         | 12 मई 2018          |
| एसएस.46421एफ       | प्रद्युम्न राव       | सिग्नलस     | 11 जून 2018         |
| एसएस.42966एफ       | बालहंस गुप्ता        | इंफैं       | 17 जून 2018         |
| एसएस.40516एल       | आर एस श्याम          | सिग्नलस     | 06 जून 2018         |

राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64 के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उसकी आयु 40 वर्ष होने तक दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये।

नियमित सेना

सेवा मुक्ति : अल्प सेवा आयोग अधिकारी

| एस एस/डब्लू एस सं. | नाम                      | आर्म/सर्विस | सेवा मुक्ति की तिथि |
|--------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| एसएस-40274एन       | संचय कुमार बबनराव सोनवते | आर्टी       | 02 दिसंबर 2017      |
| एसएस-42738वाइ      | पवेलजीत सिंह             | एओसी        | 18 नवंबर 2017       |
| एसएस-42458एल       | विनोद शर्मा              | इंफैं       | 14 अप्रैल 2017      |
| एसएस-42828ए        | संदीप साही               | मैक इंफैं   | 18 दिसंबर 2017      |
| एसएस-42673डब्लू    | सतीश मंगलमूर्ती गद्रे    | एओसी        | 10 नवंबर 2017       |
| एसएस-42825एम       | रूपम तालुकदार            | इंफैं       | 22 सितंबर 2017      |
| डब्लूएस.01320एफ    | जया मेहता                | ईएमई        | 13 मई 2017          |
| डब्लूएस.01139के    | नेहा मेहता               | अेअेडी      | 03 मई 2017          |
| डब्लूएस .01341एक्स | दीपिका शर्मा             | सिग्नलस     | 11 जून 2017         |
| डब्लूएस.01173डब्लू | तारिणी शुक्ला            | इंजिनियर    | 11 अक्टूबर 2017     |
| डब्लूएस.01179के    | अर्चना त्यागी            | एओसी        | 13 जून 2017         |
| डब्लूएस.00983ए     | काजल किरन सिंह           | एससी        | 30 मार्च 2017       |
| डब्लूएस.01323पी    | वैशाली शर्मा             | जैग         | 12 जून 2017         |

राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64 के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उसकी आयु 40 वर्ष होने तक दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये।

नियमित सेना

सेवा मुक्ति : अल्प सेवा आयोग अधिकारी

| एस एस/डब्लू एस सं. | नाम           | आर्म/सर्विस | सेवा मुक्ति की तिथि |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|
| डब्लूएस-01388एच    | ऋचा रावत      | एओसी        | 20 अक्टूबर 2017     |
| डब्लूएस-01397के    | एल चौबा देवी  | एससी        | 20 अक्टूबर 2017     |
| डब्लूएस-01090वाई   | शिप्रा मिश्रा | ईसी         | 12 सितंबर 2017      |

राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64 के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उसकी आयु 40 वर्ष होने तक दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये।

नियमित सेना

सेवा मुक्ति : अल्प सेवा आयोग अधिकारी

| एस एस/डब्लू एस सं. | नाम               | आर्म/सर्विस | सेवा मुक्ति की तिथि |
|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| एसएस-38997के       | अनूराग श्रीवास्तव | आर्टी       | 29 मई 2015          |
| एसएस-39607एच       | ब्रिजेश थापा      | इंफैं       | 03 अप्रैल 2015      |
| डब्लूएस-01082ए     | प्रीति शर्मा      | एएडी        | 15 अक्टूबर 2015     |

राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64 के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उसकी आयु 40 वर्ष होने तक दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये।

## नियमित सेना

सेवा मुक्ति : अल्प सेवा आयोग अधिकारी

| एस एस/डब्लू एस सं. | नाम                        | आर्म/सर्विस | सेवा मुक्ति की तिथि |
|--------------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| एसएस-40111ए        | आलोक कुमार दास             | ईएमई        | 17 अप्रैल 2017      |
| एसएस-41664पी       | दीपक वैष्णव                | आईएनटी      | 26 फरवरी 2017       |
| एसएस-40433ए        | लामटिनथांग खोंगसाई         | इंफैं       | 02 दिसंबर 2017      |
| एसएस-45893एल       | रीतु मीला                  | इंजिनियर    | 25 अक्टूबर 2017     |
| डब्लूएस-01168वाई   | मनोली खगांरोत              | ईन्ट        | 26 जुलाई 2017       |
| डब्लूएस-00770एम    | रेब्बेका ल्लजारजोवी छकछुआक | एड्रेसी     | 03 जून 2017         |

राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64 के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उसकी आयु 40 वर्ष होने तक दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये।

## नियमित सेना

सेवा मुक्ति : अल्प सेवा आयोग अधिकारी

| एस एस/डब्लू एस सं. | नाम           | आर्म/सर्विस | सेवा मुक्ति की तिथि |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|
| डब्लूएस-00726एच    | रुचिका शर्मा  | इंफैं       | 07 जनवरी 2017       |
| डब्लूएस-01238एम    | शिल्पा फापाले | सिग्नलस     | 13 नवंबर 2016       |
| डब्लूएस-01241एम    | सरबजीत के गिल | ईएमई        | 12 नवंबर 2016       |
| डब्लूएस-00903एक्स  | जसरीन ढिल्लन  | इंजिनियर    | 26 जून 2016         |

एस वि सर्मा  
कर्नल

कर्नल सेना सचिव 7

(सेना शाखा)

सं. 132, दिनांक 15 जनवरी 2019—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 11 दिसम्बर 1999 से)

शुद्धि पत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 02 दिसम्बर 2000 को 105 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती हैं।

|        |   |                               |                      |             |
|--------|---|-------------------------------|----------------------|-------------|
| के लिए | — | शान्तागाउडर मलंगउपा पुटटनगउडा | आई सी सं० — 59331वाई | ईन्जिनियर्स |
| पढ़ें  | — | शान्तागाउडर मलंगउडा पुटटनगउडा | आई सी सं० — 59331वाई | ईन्जिनियर्स |

संदीप सिंह ठाकुर  
ले. कर्नल  
ए एम एस 8बी

(सेना शाखा)

सं. 133, दिनांक 16 जनवरी 2019—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं।

(नियमित सेना)

स्थायी आयोग (विशेष सूची)

शुद्धि पत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना, भाग 1 अनुभाग 4 के शीर्षक नियमित सेना के अर्न्तगत उपशीर्षक स्थायी आयोग (विशेष सूची) जो दिनांक 07 मार्च 2015 को प्रकाशित हुआ है को निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए

1. निम्नलिखित जे सी ओज/एन सी ओज को सेना अनुदेश 85/74, यथासंशोधित के अर्न्तगत 07 अगस्त 2013 से लेफ्टिनेंट के पद पर संलिखित श्रेणी व निम्नलिखित वरियता के क्रम में स्थायी आयोग (विशेष सूची) में अनुदान प्रदान किया जाता है। उन सभी जे सी ओज को जिनकी जे सी ओज और पद में कुल मिलाकर आठ वर्ष या उससे अधिक सेवा है, और जो इस अधिसूचना में सम्मिलित हैं उन्हें सेना अनुदेश 85/74, यथासंशोधित के सब पैरा 7(सी) के अर्न्तगत केवल वेतन के लिए दो साल वरियता दी जाती है।

पढ़ें

1. निम्नलिखित जे सी ओज/एन सी ओज को सेना अनुदेश 85/74, यथासंशोधित के अर्न्तगत 07 अगस्त 2014 से लेफ्टिनेंट के पद पर संलिखित श्रेणी व निम्नलिखित वरियता के क्रम में स्थायी आयोग (विशेष सूची) में अनुदान प्रदान किया जाता है। उन सभी जे सी ओज को जिनकी जे सी ओज और अन्य पद में कुल मिलाकर आठ वर्ष या उससे अधिक सेवा है, और जो इस अधिसूचना में सम्मिलित हैं उन्हें सेना अनुदेश 85/74, यथासंशोधित के सब पैरा 7(सी) के अर्न्तगत केवल वेतन के लिए दो साल वरियता दी जाती है।

प्रकाश कुमार सिंह  
ले0 कर्नल  
ए एम एस 8 बी

## MINISTRY OF DEFENCE

## D(MS) SECTION

New Delhi, the 2nd February 2019

No. 119, dated 27th December 2018—The president of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 January 2019:—

## HONORARY AIR ADC

Air Mshl RKS Bhadauria PVSM AVSM VM (16026) F(P)

REVATI RAMAN  
Under Secretary

## ARMY BRANCH

No. 120, dated 28th December 2018—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 22 Sep 2017, on relinquishing their Short Service Commission wef 22 Sep 2017 :—

| SS No     | IC No Allotted | Name        | Arms/Services |
|-----------|----------------|-------------|---------------|
| SS-42759P | IC-73404L      | PAWAN SETHI | INF           |

The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :—

- |     |                                 |   |             |
|-----|---------------------------------|---|-------------|
| (a) | Date for increments of pay      | - | 22 Sep 2007 |
| (b) | Date of seniority for promotion | - | 22 Apr 2008 |

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

SV SARMA  
Col  
Col MS 7

No. 121, dated 31st December 2018—The President is pleased to make the following appointment :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 03 (three) Gentleman Cadets of TES-28 Course are granted permanent commission in the rank of Lt wef 10 Dec 2016(F/N) under the terms and conditions of AI 3/99, as amended.

SACHIN SONI (IC 82522A) ENGRS with the seniority below PRAVEEN SINGH (IC 82521X) ARTY, ADITYA(IC82578M) MECH with the seniority below SOURABH YADAV (IC 82577K) ARTY, LAKHVINDER SINGH (IC82600M) INF with the seniority below DHURUV KISHORE SHARMA (IC 82599H) ENGRS, whose name has been published in Gazette of India.

The undermentioned One Gentleman Cadet of 142 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 26Sep 2018 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

SUJEET KUMAR SINGH (IC-83969K) ENGRS seniority next below PRADEEP SINGH (IC-83968F) ARTY whose name appeared in the Gazette of India

The undermentioned 01 (one) GC of 23 University Entry Scheme (UES) Course is granted Short Service Commission (on probation) for the period of his training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name under the provision AI 2/93, as amended for the GC of UES Course.

| IMA No                    | Name           | SS No  | Arm/ Service | Date of SSC on Probation |
|---------------------------|----------------|--------|--------------|--------------------------|
| Technical Graduate Course |                |        |              |                          |
| U/1331                    | ANKUR SARASWAT | 48088M | EME          | 01 JUL 13                |

The Arm/ Service allotted to the GC is valid for the duration of his training only.

The under mentioned 02 (two) Gentlemen Cadets of 124 Technical Graduates Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names, under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course.

| IMA No                        | Name          | SS No  | Arm/ Service | Date of SSC on Probation |
|-------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------------------|
| 124 Technical Graduate Course |               |        |              |                          |
| T/8000                        | VISHAL SINGH  | 49763A | SIGS         | 10 JAN 17                |
| T/8005                        | VIKAS SHEORAN | 49768Y | ENGRS        | 10 JAN 17                |

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

**REGULAR ARMY**  
**(SHORT SERVICE COMMISSION)**

**TO BE LIEUTENANT**

The under mentioned three Gentlemen Cadets of SSC(NT)-102 Course are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant wef 10Sep 2016 for a period of 10 years under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with Govt of India Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dated 20 Jul 2006:-

VARUN SINGH CHAUHAN (SS-48831W) AC with the seniority below RAKESH T R (SS-48830N) INF, KARAN SANGWAN (SS-48881F) ASC with the seniority below KARANVEER SINGH MANN (SS-48880Y) ENGRS and SUDHIR YADAV (SS-48967A) ASC with the seniority below ADITYA RAJ SINGH (SS-48964M) AOC.

The under mentioned one Gentlemen Cadet of SSC(NT)-102 Course is granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant wef 10Sep 2016 for a period of 10 years under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with Govt of India Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dated 20 Jul 2006:-

NITIN JOSE (SS-48901K) ENGRS with the seniority below AMIT KUMAR (SS-48900F) INF.

The under mentioned three Gentlemen Cadets of SSC (NT)-103 Course are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant with effect from 11 Mar 2017 for a period of 10 years under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with Govt of India Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dated 20 Jul 2006:-

SURAJ SHINDE (SS-49138Y) ARTY with the seniority below VARUN SHARMA (SS-49137W) AAD, VIVEK BISHNOI (SS-49168W) ARTY with the seniority below SANDEEP SINGH (SS-49167N) SIGS, SATYABRATA GHOSH (SS-49209P) ASC with the seniority below VIPUL KATOCH (SS-49208M) AVN.

The under mentioned three Gentlemen Cadets of SSC (NT)-104 Course are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant with effect from 09 Sep 2017 for a period of 10 years under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with Govt of India Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dated 20 Jul 2006:-

KULBIR SINGH MOHAN (SS-49455A) ARTY with the seniority below VIVEK (SS-49451K) MECH, VISHAL SINGH (SS-49476W) ARTY with the seniority below ABHIJEET SINGH GREWAL (SS-49475N) ASC and RAHUL SINGH (SS-49492N) INF with the seniority above PRATEEK PANDEY (SS-49493W) ARTY.

The under mentioned Gentleman Cadet of SSC (Tech)-45 Course was granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officers Training Academy, Chennai in the rank of Lieutenant with effect from the date shown against his name. Subsequently, on successful completion of training, his Short Service Commission has been confirmed for a period of 10 years with effect from 10 Sep 2016, under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with Govt of India Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 for SSCOs(Men-Tech). The officer has also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 13 Sep 2015 under SAI 1/S/94 as amended:—

GURINDER SINGH GILL (SS-49019H) SIGS (date of SSC on probation-05 Oct 15) with the seniority below GAURAV BERI (SS-49018A) SIGS.

The under mentioned three Gentleman Cadets of SSC(Tech)-47 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officers Training Academy, Chennai in the rank of Lieutenant with effect from the date shown against their name. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission has been confirmed for a period of 10 years with effect from 09 Sep 2017, under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with Govt of India Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dated 20 Jul 2006 for SSCOs (Men-Tech). They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 11 Sep 2016 under SAI 1/S/94 as amended:-

PIYUSH KUMAR BHENSLE (SS-49603A) ARTY (date of SSC on probation-03 Oct 16) with the seniority below SAHIL VERMA (SS-49602X) INF, RAJEEV RANJAN (SS-49627K) INT (date of SSC on probation-03 Oct 16) with the seniority below ADITYA MAJILA (SS-49626F) INF and SOURAV MALAKAR (SS-49711K) ASC (date of SSC on probation-03 Oct 16) with the seniority below SIDHARTH SHARMA (SS-49710F) ARTY.

SANDEEP SINGH THAKUR

Lt Col

AMS 8B

(ARMY BRANCH)

No. 122, dated 1st January 2019—The President is pleased to make the following appointment : —

TERRITORIAL ARMY

ANTE DATE SENIORITY

SS-39399Y Ex Captain Ashish Gurung now TA-43047Y Lieutenant Ashish Gurung has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 10 Nov 2016 in the rank of Lieutenant under the provisions given in Appendix VIII of Territorial Army Regulations 1948 (Revised Edition 1976). He is also granted 14 years (wef 01.09.2001 to 01.09.2015) ante date seniority with effect from 10 Nov 2002 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Major with effect from 10 Nov 2016. Also the officer is promoted with notional seniority for pay and promotion in the rank of Captain with effect from 10 Nov 2006, Major with effect from 10 Nov 2010 and Lieutenant Colonel with effect from 10 Nov 2017 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of Territorial Army Regulations 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 2006 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

SS-40933X Ex Lieutenant Babar Saleem now TA-43032W Lieutenant Babar Saleem has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 15 Jul 2016 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of Territorial Army Regulations 1948 (Revised Edition 1976). He is also granted 10 years (wef 17.09.2004 to 17.09.2014) ante date seniority with effect from 15 Jul 2006 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Major with effect from 15 Jul 2016. Also the officer is promoted with notional seniority for pay and promotion in the rank of Captain with effect from 15 Jul 2010 and Major with effect from 15 Jul 2014 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of Territorial Army Regulations 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

SUDERSHAN KUMAR

Under Secretary

(ARMY BRANCH)

No. 123, dated 2nd January 2019—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned 51 (fifty one) Gentlemen Cadets of 10+2 TES-31 Course are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 09 Jun 2018 (FN) under the provision of AI 3/99, as amended.

| IC No |   | Name          | Arms/<br>Services |
|-------|---|---------------|-------------------|
| 84048 | W | DIPANSHU SONI | INF               |
| 84049 | Y | LOHIT YADAV   | INF               |
| 84050 | N | VISHAL SINGH  | ARTY              |

| IC No |   | Name                        | Arms/<br>Services |
|-------|---|-----------------------------|-------------------|
| 84051 | W | K AVINASH                   | SIGS              |
| 84052 | Y | SANJAY ADHIKARI             | INF               |
| 84053 | F | AMIT DADHEECH               | INF               |
| 84054 | K | ANKIT PANDEY                | SIGS              |
| 84055 | M | VIKAS THAKUR                | MECH INF          |
| 84056 | P | HADPAD BASAVRAJ SHEKHARAPPA | SIGS              |
| 84057 | X | VARUN SINGH JAMWAL          | ARTY              |
| 84058 | A | VISHABH SINGH               | EME               |
| 84059 | H | SUMIT BHATT                 | ENGRS             |
| 84060 | X | ASHUTOSH SINGH              | ENGRS             |
| 84062 | H | MAYANK SHARMA               | SIGS              |
| 84063 | L | RAHUL UPRARI                | INF               |
| 84066 | Y | MANDEEP SINGH               | EME               |
| 84067 | F | VIVEK SOMANI                | ENGRS             |
| 84068 | K | ANIL HINDUJA                | SIGS              |
| 84069 | M | HIMANSHU UPADHYAY           | EME               |
| 84070 | F | ATUL YADAV                  | EME               |
| 84071 | K | AMANDEEP SINGH              | AC                |
| 84072 | M | ANKIT KUMAR JAISWAL         | SIGS              |
| 84074 | X | SURAJ KUMAR SHARMA          | EME               |
| 84075 | A | INDRANEEL RANA              | EME               |
| 84076 | H | NISHANT ADITYA SINGH        | AAD               |
| 84078 | N | AMAN DHAR                   | SIGS              |
| 84079 | W | GAURAV DHAKA                | SIGS              |
| 84080 | L | SHIVANSH DEV SINGH JASWAL   | INF               |
| 84082 | W | YATHARTH SHARMA             | ENGRS             |
| 84083 | Y | AKASH KUMAR TYAGI           | EME               |
| 84084 | F | TEJAS SUPEKAR               | SIGS              |
| 84085 | K | SATYAM DHAWAN               | EME               |
| 84086 | M | RAJVEER JAJDA               | ASC               |
| 84087 | P | SAUMITRA DUBEY              | SIGS              |
| 84088 | X | JOE SIBI MATTATHIL          | EME               |
| 84089 | A | SHOBHIT YADAV               | ENGRS             |
| 84090 | P | ADITYA MAHALWAL             | ENGRS             |
| 84091 | X | HARSHIT PUNDIR              | SIGS              |
| 84092 | A | RAHUL SINGH                 | INF               |
| 84093 | H | GUDDA TIRUPATHI BABURAO     | INF               |
| 84095 | N | LALIT RANA                  | AOC               |
| 84096 | W | MANVENDRA NEGI              | ENGRS             |
| 84097 | Y | ZENITH BORA                 | ENGRS             |
| 84098 | F | PAKSHIT DEB                 | ENGRS             |
| 84099 | K | AJIT KUMAR SINGH            | SIGS              |
| 84100 | N | SUNNY SINGH                 | ARTY              |

| IC No |   | Name                            | Arms/<br>Services |
|-------|---|---------------------------------|-------------------|
| 84101 | W | RAVI RATHORE                    | SIGS              |
| 84103 | F | SALUNKHE SUNNY DATTATRAY        | ARTY              |
| 84104 | K | ARPIT KUMAR                     | SIGS              |
| 84107 | X | ABHISHEK PANDEY                 | ARTY              |
| 84108 | A | YADAV CHANDRAPRAKASH RAMNARAYAN | INF               |

The undermentioned 14 (fourteen) Gentleman Cadets of 125 Technical Graduates Course (TGC), whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 09 Jun 2018 (F/N). They are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 11 Jun 2017 under SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course :—

| IMA No | NAME                      | IC No |   | ARM/<br>SERVICE |
|--------|---------------------------|-------|---|-----------------|
| T/8033 | KARANVEER SINGH BHANGOO   | 84113 | L | AC              |
| T/8039 | VIKRAMJEET SINGH KHAJURIA | 84116 | Y | EME             |
| T/8047 | PARAKH AMEYA LOKESH       | 84120 | F | ARTY            |
| T/8042 | VISHAL KUMAR              | 84121 | K | ENGRS           |
| T/8060 | HARISH PATIL              | 84124 | X | ENGRS           |
| T/8049 | NITISH BHATIA             | 84125 | A | SIGS            |
| T/8015 | VISHAL SALUNKE            | 84130 | L | ENGRS           |
| T/8032 | SAHIL CHAUDHARY           | 84132 | W | ENGRS           |
| T/8048 | RAJAN TYAGI               | 84133 | Y | AAD             |
| T/8059 | VAISAKH J NAIR            | 84135 | K | SIGS            |
| T/8036 | SOHAM SATPATI             | 84137 | P | INF             |
| T/8007 | PRASHANT KUMAR PANDEY     | 84141 | X | EME             |
| T/7969 | HARSHAL JOSHI             | 84143 | H | SIGS            |
| T/8058 | VIGNESH V                 | 84146 | W | EME             |

The following 02 (two) Gentleman Cadets are also granted permanent commission in the rank of Lt wef 09 Jun 2018 (F/N) under the terms and conditions of AI 105/61:—

| IMA No | NAME               | IC No |   | ARM/<br>SERVICE |
|--------|--------------------|-------|---|-----------------|
| T/8029 | LOKESH SINGH RAWAT | 84111 | A | AEC             |
| T/8020 | DESH RATAN         | 84119 | M | AEC             |

The undermentioned 06 (six) Gentleman Cadets (GCs) of 123 Technical Graduate Course and 25 University Entry Scheme Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) and 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 10 Jun 2017 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC) and AI 2/93, as amended (UES) and are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 12 Jun 2016 under SAI 1/S/94, as amended for GCs TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course, except one GC T/7938 Gaurav Singh Rawat (IC 83097M) who is commissioned in AEC, is granted permanent commission in the rank of Lt wef 10 Jun 2017 (F/N) under AI 105/61, hence they are not granted ante date seniority.

U/1507 GUNEETBIR SINGH (IC 83096K) INF with the seniority below U/1497 ANANT JOT SINGH (IC 83094Y) ENGRS, T/7938 GAURAV SINGH RAWAT (IC 83097M) AEC with the seniority above T/7936 SIDDHARTH GHOSH (IC 83098P) SIGS, U/1515 ARSHDEEP BHANOT (IC 83133M) AC with the seniority below U/1509 MANIT GOYAL (IC 83132K) ENGRS, U/1527 MOHIT PRAKASH SINGH (IC 83149X) ENGRS with the seniority below U/1524 TOSHAL HEMANT VYAS (IC 83148P) INF, T/7959 SHOBHITH SHETTY K J (IC 83150M) ARTY with the seniority above T/7971 HARKIRAT SINGH (IC 83151P) ARTY, U/1516 NISCHAY DHAWAN (IC 83154H) ASC with the seniority below U/1513 AKSHAY BHARDWAJ (IC 83153A) ENGRS, whose name has been published in Gazette of India.

The undermentioned 01 (one) Gentleman Cadet (GC) of 23 University Entry Scheme Course whose GC number is prefixed by 'U' (denoting UES) is granted permanent commission in the rank of Lt wef 13 Jun 2015 (F/N) under the terms

and conditions of AI 2/93, as amended (UES) and he is also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 15 Jun 2014 under AI 2/93, as amended for GC of UES Course:—

U/1331 ANKUR SARASWAT (IC 80803X) AVN with the seniority below T/7706 SIJO T JOSE (IC 80802P) ARTY, whose name has been published in Gazette of India.

**REGULAR ARMY**  
**SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)**

The undermentioned one GC of 123 Technical Graduate (TG) Course is granted Short Service Commission (on probation) for the period of his training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name under the provision of SAI 1/S/94, as amended for the GC of TG Course :-

| IMA No                        | Name          | SS No |   | Arm/Service | Date of SSC (On Probation) |
|-------------------------------|---------------|-------|---|-------------|----------------------------|
| 123 Technical Graduate Course |               |       |   |             |                            |
| T/7969                        | HARSHAL JOSHI | 49398 | K | EME         | 12 JUL 16                  |

The Arm/ Service allotted to the GC is valid for the duration of his training only.

The undermentioned 02 (two) GCs of 123 Technical Graduate Course and 25 University Entry Scheme Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their name under the provision of SAI 1/S/94, as amended and AI 2/93, as amended for the GCs of TGC and UES Course respectively:—

| IMA No                            | Name             | SS No  | Arm/ Service | Date of SSC on Probation |
|-----------------------------------|------------------|--------|--------------|--------------------------|
| 123 Technical Graduate Course     |                  |        |              |                          |
| T/7926                            | UTSAV KHANDELWAL | 49360A | ENGRS        | 12 JUL 16                |
| 25 University Entry Scheme Course |                  |        |              |                          |
| U/1486                            | VAIBHAV MISHRA   | 49405P | ENGRS        | 01 JUL 15                |

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

The undermentioned 05 (five) GCs of 123 Technical Graduate Course and 25 University Entry Scheme Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their name under the provision of SAI 1/S/94, as amended and AI 2/93, as amended for the GCs of TGC and UES Course respectively:—

| IMA No                            | Name                | SS No  | Arm/ Service | Date of SSC on Probation |
|-----------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------------------|
| 123 Technical Graduate Course     |                     |        |              |                          |
| T/7959                            | SHOBHITH SHETTY K J | 49389H | EME          | 12 JUL 16                |
| 25 University Entry Scheme Course |                     |        |              |                          |
| U/1507                            | GUNEETBIR SINGH     | 49426L | EME          | 01 JUL 15                |
| U/1515                            | ARSHDEEP BHANOT     | 49434K | ENGRS        | 01 JUL 15                |
| U/1516                            | NISCHAY DHAWAN      | 49435M | EME          | 01 JUL 15                |
| U/1527                            | MOHIT PRAKASH SINGH | 49446Y | EME          | 01 JUL 15                |

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

The undermentioned 02 (two) GCs of 124 Technical Graduate (TG) Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their name under the provision of SAI 1/S/94, as amended for the GCs of TG Course:—

| IMA No                        | Name                  | SS No | Arm/Service | Date of SSC (On Probation) |           |
|-------------------------------|-----------------------|-------|-------------|----------------------------|-----------|
| 124 Technical Graduate Course |                       |       |             |                            |           |
| T/8007                        | PRASHANT KUMAR PANDEY | 49770 | W           | EME                        | 10-Jan-17 |
| T/8015                        | VISHAL SALUNKE        | 49777 | A           | ENGRS                      | 15-Jan-17 |

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

The undermentioned 11 (eleven) GCs of 125 Technical Graduates Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names, under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course.

| IMA No                         | NAME                      | SS No |   | ARM/ SERVICE | Date of SSC<br>(On Probation) |
|--------------------------------|---------------------------|-------|---|--------------|-------------------------------|
| 125 TECHNICAL GRADUATES COURSE |                           |       |   |              |                               |
| T/8032                         | SAHIL CHAUDHARY           | 50022 | P | ENGRS        | 11-Jul-17                     |
| T/8033                         | KARANVEER SINGH BHANGOO   | 50023 | X | EME          | 11-Jul-17                     |
| T/8036                         | SOHAM SATPATI             | 50026 | L | EME          | 11-Jul-17                     |
| T/8039                         | VIKRAMJEET SINGH KHAJURIA | 50028 | W | EME          | 11-Jul-17                     |
| T/8042                         | VISHAL KUMAR              | 50031 | W | ENGRS        | 11-Jul-17                     |
| T/8047                         | PARAKH AMEYA LOKESH       | 50036 | P | EME          | 11-Jul-17                     |
| T/8048                         | RAJAN TYAGI               | 50037 | X | EME          | 11-Jul-17                     |
| T/8049                         | NITISH BHATIA             | 50038 | A | SIGS         | 11-Jul-17                     |
| T/8058                         | VIGNESH V                 | 50047 | F | EME          | 11-Jul-17                     |
| T/8059                         | VAISAKH J NAIR            | 50048 | K | EME          | 21-Jul-17                     |
| T/8060                         | HARISH PATIL              | 50049 | M | ENGRS        | 28-Jul-17                     |

The Arms/Services allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

PRAKASH KUMAR SINGH  
Lt Col  
AMS 8B

DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT  
(DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION)

No. 124, dated 3rd January 2019—The President is pleased to make the following promotion:—

Acting Major General to Substantive Major General

|           |                  |                                     |
|-----------|------------------|-------------------------------------|
| No,       | Rank and Name    | Substantive rank to be granted from |
| IC-48887H | Maj Gen MK Hada, | 05.02.2018                          |
| EME       |                  |                                     |

DR BK MISHRA  
Associate Dir (Pers-AF)  
for Chairman DRDO & Secy DD (R&D)

AIR BRANCH

No. 125, dated 4th January 2019—The President is pleased to make the following promotion:—

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

TO BE SUBSTANTIVE AIR MARSHAL

| RANK     | NAME                        | NO    | BR   | DATE     |
|----------|-----------------------------|-------|------|----------|
| AIR MSHL | CHAUDHARI VIVEK RAM AVSM VM | 16978 | F(P) | 01.10.18 |
| AIR MSHL | DEV AMIT VSM                | 16972 | F(P) | 01.10.18 |

PRASHANT KUMAR  
Dy. Dir. Personnel (Officer) – 2B

## ARMY BRANCH

No. 126, dated 7th January 2019—The President is pleased to make the following promotions :—

## TERRITORIAL ARMY

## TERRITORIAL COMMISSION

## TO BE LT COL

|                                |          |            |             |
|--------------------------------|----------|------------|-------------|
| Maj David Lalhmingthang Khojol | TA-42883 | (Infantry) | 04 Aug 2018 |
| Maj Praveen Sharma             | TA-43038 | (Infantry) | 01 Aug 2018 |
| Maj Ayub Khan                  | TA-42572 | (Infantry) | 07 Jul 2018 |
| Maj Vikram Sharma              | TA-42854 | (Infantry) | 13 Feb 2018 |

The President is pleased to make the following promotions :—

## TO BE MAJ

|                            |          |            |             |
|----------------------------|----------|------------|-------------|
| Capt Puneet Dadeech        | TA-42574 | (Infantry) | 06 Feb 2018 |
| Capt Parminder Singh Sohal | TA-42848 | (Infantry) | 06 Jun 2016 |
| Capt Bhupender Singh Maan  | TA-42885 | (Infantry) | 05 Jun 2017 |
| Capt Amit Nagarkar         | TA-42762 | (Infantry) | 05 Apr 2018 |
| Capt Chandan Borgoyari     | TA-42766 | (Infantry) | 29 Apr 2018 |
| Capt Chhatrapal Chauhan    | TA-42768 | (Infantry) | 08 May 2018 |

## TO BE CAPT

|                    |          |            |             |
|--------------------|----------|------------|-------------|
| Lt Raghav Khajuria | TA-42926 | (Infantry) | 04 Jun 2018 |
| Lt Vedant Gahlaut  | TA-42927 | (Infantry) | 10 Jun 2018 |
| Lt Kanav Asthir    | TA-42932 | (Infantry) | 13 Jul 2018 |

SUDERSHAN KUMAR  
Under Secretary

No. 127, dated 8th January 2019—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

## LT TO BE CAPT

| SS No | Name             | Arm   | Initial Date of Seniority | Course     | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|-------|------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 49271 | NITISH MISHRA    | SIGS  | 13 Mar 16                 | SSC-46 (T) | 13 Apr 2016                              | 13 Apr 18                          |
| 49290 | NAVNEESH VASHIST | ARTY  | 13 Mar 16                 | SSC-46 (T) | 13 Apr 2016                              | 13 Apr 18                          |
| 49294 | AMAN PATWAL      | SIGS  | 13 Mar 16                 | SSC-46 (T) | 13 Apr 2016                              | 13 Apr 18                          |
| 49298 | AMRINDER SINGH   | AVN   | 13 Mar 16                 | SSC-46 (T) | 13 Apr 2016                              | 13 Apr 18                          |
| 49318 | NISHANT GAUTAM   | EME   | 13 Mar 16                 | SSC-46 (T) | 13 Apr 2016                              | 13 Apr 18                          |
| 49347 | AKSHAY TRIVEDI   | ENGRS | 13 Mar 16                 | SSC-46 (T) | 13 Apr 2016                              | 13 Apr 18                          |

REGULAR ARMY  
SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)  
LT TO BE CAPT

| SS No | Name            | Arm   | Initial Date of Seniority | Course      | Adjusted Date of Seniority for Promotion | Date of grant of Subs rank of Capt |
|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 49283 | NIDHI           | ENGRS | 13 Mar 16                 | SSCW-17 (T) | 13 Apr 16                                | 13 Apr 18                          |
| 49352 | KANIKA MISHRA   | EME   | 13 Mar 16                 | SSCW-17 (T) | 13 Apr 16                                | 13 Apr 18                          |
| 48314 | ARJUN SHARMA    | SIGS  | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48321 | S V SUBHASH     | EME   | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48326 | K R JOSHI       | ARTY  | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48336 | M D SUHEL       | AAD   | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48355 | MICHEL C JOHN   | ENGRS | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48372 | I PAUL RAJ      | EME   | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48378 | S NARAYANAN     | SIGS  | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48388 | JAIDEEP SINGH   | AVN   | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48391 | ANUBHAV MALIK   | SIGS  | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48394 | KARTIK BELWAL   | EME   | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48396 | RAJESH OJHA     | AC    | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48400 | BHANU PRATAP    | AOC   | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48409 | PRAFUL KR YADAV | ENGRS | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48412 | M V VIJAYSINH   | EME   | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |
| 48430 | D M MARUR       | ASC   | 14 Sep 14                 | SSC-43 (T)  | 14 Oct 14                                | 14 Oct 16                          |

P. K. SINGH  
Lt. Col.  
AMS-8B

ARMY BRANCH  
REGULAR ARMY  
CORPS OF MILITARY POLICE

No. 128, dated 9th January 2019—The President is pleased to make the following promotions:—

TO BE SUBEDAR MAJOR (MP)

|     |                     |            |              |
|-----|---------------------|------------|--------------|
| Sub | Tarsem Lal          | JC-819519M | 1st Jan 2017 |
| Sub | Purushothaman P     | JC-819530L | 1st Feb 2017 |
| Sub | Vimal Prakash Singh | JC-819532W | 1st Feb 2017 |
| Sub | Ram Pal             | JC-819570M | 1st Feb 2017 |
| Sub | Amresh Kumar        | JC-819602K | 1st May 2017 |
| Sub | Rohtash             | JC-819636X | 1st Oct 2017 |
| Sub | Ram Kesh            | JC-819646F | 1st Nov 2017 |

TO BE SUBEDAR MAJOR (CLERK)

|     |                |            |              |
|-----|----------------|------------|--------------|
| Sub | Basudev Rout   | JC-819429L | 1st Apr 2017 |
| Sub | Abhey Singh    | JC-819430A | 1st Jun 2017 |
| Sub | Ramesh Chandra | JC-819700K | 1st Jun 2017 |

TO BE SUBEDAR (MP)

|        |                               |            |              |
|--------|-------------------------------|------------|--------------|
| Nb Sub | Sunil kumar Singh Dalal       | JC-819931A | 1st Jan 2017 |
| Nb Sub | Zala Balram Sinh Randhir Sinh | JC-819932H | 1st Jan 2017 |

|                                                                                      |                                 |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| Nb Sub                                                                               | Anil Kumar                      | JC-819933L | 14th Jan 2017* |
| *(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2017 without effect on pay and allces) |                                 |            |                |
| Nb Sub                                                                               | Ishwar Singh                    | JC-819934N | 1st Jan 2017   |
| Nb Sub                                                                               | C Muni Rathinam                 | JC-819935W | 1st Jan 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Madhvendra Kumar Sarswat        | JC-819938K | 5th Jan 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2017 without effect on pay and allces) |                                 |            |                |
| Nb Sub                                                                               | Jonnarapu Ramana Reddy          | JC-819939M | 1st Feb 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Bhalekar Sandipan Sopan         | JC-819940F | 1st Feb 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Satheesh Kumar S                | JC-819941K | 1st Feb 2017   |
| Nb Sub                                                                               | S Sankara Srinivasa Rao G       | JC-819942M | 1st Feb 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Rajesh Kumar Singh              | JC-819943P | 1st Feb 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Patel Mahesh Bhai Dahya Bhai    | JC-819944X | 1st Feb 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Rajender Prasad                 | JC-819945A | 1st Feb 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Jagdish Suthar                  | JC-819952W | 1st Feb 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Jitendra Kumar Bana             | JC-819953Y | 1st Mar 2017   |
| Nb Sub                                                                               | A Mohan Raj                     | JC-819954F | 1st Mar 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Nand Kishore Viswakarma         | JC-819955K | 1st Mar 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Hanuman Ram                     | JC-819956M | 3rd Apr 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2017 without effect on pay and allces) |                                 |            |                |
| Nb Sub                                                                               | Ajit Kumar Mandal               | JC-819957P | 1st Apr 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Surada Lakshmana Rao            | JC-819958X | 1st Apr 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Raghuvir Singh                  | JC-819959A | 1st Apr 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Dilip Kumar Baxla               | JC-819960P | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Vaddina Ram Rao                 | JC-819961X | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Sanjiv Kumar                    | JC-819962A | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Manikandhan P Nair              | JC-819963H | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Navin Chandra                   | JC-819965N | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Rama Kant Singh                 | JC-819966W | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Ashok Kumar Singh               | JC-819967Y | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Mahendr Yadav                   | JC-819968F | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Kamala Singh                    | JC-819969K | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Aghav Aba Pandurang             | JC-819970Y | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Gambhir Dana Bhaimhaja Bhai     | JC-819974P | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Ratan Lal                       | JC-819975X | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Santosh Kumar                   | JC-819976A | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Mataroo Yadav                   | JC-819977H | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Sujoy Ghosh                     | JC-819978L | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Nand Kishore Singh              | JC-819979N | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Mwnthigiri Narzary              | JC-819980H | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Biju M Abraham                  | JC-819981L | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Rajendra Singh Chauhan          | JC-819982N | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Shaji Cheniyantiyl Parayikkandi | JC-819983W | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Sudananda P                     | JC-819984Y | 12th Jun 2017* |
| *(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2017 without effect on pay and allces) |                                 |            |                |
| Nb Sub                                                                               | Santosh Kumar Pathak            | JC-819985F | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Yogendra Prasad                 | JC-819986K | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Mintu Kumar Samanta             | JC-819987M | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Sunil Kumar Yadav               | JC-819988P | 5th Jul 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2017 without effect on pay and allces) |                                 |            |                |
| Nb Sub                                                                               | Balattar Singh Yadav            | JC-819989X | 1st Jul 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Nirmal Kumar                    | JC-819990M | 1st Jul 2017   |

|                                                                                      |                                         |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|
| Nb Sub                                                                               | Ravinder Kumar                          | JC-819991P | 1st Jul 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Uma Shankar Yadav                       | JC-819992X | 1st Jul 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Sekhawat Bhawani Singh Bhagi Rath Singh | JC-819993A | 1st Jul 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Ranbir Prasad Singh                     | JC-819994H | 1st Jul 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Lal Bahadur Yadav                       | JC-819995L | 1st Jul 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Munirathinam K                          | JC-819996N | 5th Jul 2017* |
| *(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2017 without effect on pay and allces) |                                         |            |               |
| Nb Sub                                                                               | Bijender Singh                          | JC-819997W | 1st Jul 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Hari Prakash Yadav                      | JC-819998Y | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Sanjay Kumar Samal                      | JC-819999F | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | RP Santhana Krishnan                    | JC-820000H | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | OM Prakash Prasad                       | JC-820001L | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Nand Lal Ram                            | JC-820002N | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Yeduru Rama Krishna                     | JC-820003W | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Saina Puram Laxma Reddy                 | JC-820004Y | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Om Prakash                              | JC-820005F | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Ashok Kumar Yadav                       | JC-820006K | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | B Hari                                  | JC-820007M | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Birdi Lal Meena                         | JC-820009X | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Narendra Kumar                          | JC-820010M | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Manoj Kumar Pandey                      | JC-820011P | 1st Aug 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Masih Horo                              | JC-820012X | 1st Sep 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Jagdish Chander                         | JC-820013A | 1st Sep 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Mahendra Upadhyay                       | JC-820015L | 1st Sep 2017  |
| Nb Sub                                                                               | K P Mishra                              | JC-820016N | 1st Sep 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Prakash Ranjan Rai                      | JC-820017W | 1st Sep 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Arun Kumar Upadhya                      | JC-820018Y | 1st Sep 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Krishna Kant Ojha                       | JC-820019F | 1st Sep 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Chandra Sekaran A                       | JC-820021Y | 1st Sep 2017  |
| Nb Sub                                                                               | RC Madhusoodanan Pillai                 | JC-820022F | 1st Sep 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Dibakar Das                             | JC-820023K | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Ramesh S                                | JC-820024M | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Rajendra Singh                          | JC-820025P | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Debabrata Das                           | JC-820026X | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Raju Sharma                             | JC-820027A | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Jitendra Sharma                         | JC-820028H | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Manoj Kumar Thakur                      | JC-820029L | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Rajesh Kumar                            | JC-820030A | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Ganga Datt Melkani                      | JC-820032L | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Pabitra Kumar Bhowmick                  | JC-820034W | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Amarjit Thapar                          | JC-820035Y | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Ramesh Chand                            | JC-820036F | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Sanjay Kumar Ray                        | JC-820037K | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Vyas Singh                              | JC-820038M | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Suresh Kumar                            | JC-820040K | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Kishore Rai                             | JC-820041M | 1st Oct 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Suprakash Bera                          | JC-820042P | 1st Nov 2017  |
| Nb Sub                                                                               | V Ramu                                  | JC-820043X | 1st Nov 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Arun Barthwal                           | JC-820044A | 1st Nov 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Beeram Singh                            | JC-820045H | 1st Nov 2017  |
| Nb Sub                                                                               | Mritunjay Debey                         | JC-820046A | 1st Nov 2017  |

|        |                         |            |              |
|--------|-------------------------|------------|--------------|
| Nb Sub | Rajendra Kumar Kushwaha | JC-820048W | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Ram Raja Yadava         | JC-820049Y | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Krishna Kumar M         | JC-820050N | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Pardeep Kumar Singh     | JC-820051W | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | M Raja Sekhar Babu      | JC-820052Y | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Manoj Kumar Tiwari      | JC-820053F | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Kashmir Singh           | JC-820054K | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Md Lokman Hikim Khan    | JC-820055M | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | N Krishnan              | JC-820056P | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | T M Rajeevakshan        | JC-820057X | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Pawan Kumar             | JC-820058A | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Maksud Ali              | JC-820059H | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Suresh Kumar Samal      | JC-820060X | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Barhate Nitin Nathu     | JC-820061A | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Diwakar Kumar Singh     | JC-820062H | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Saravan Singh Yadav     | JC-820063L | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Mahesh Yadava           | JC-820064N | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Subhash Chandra Prusty  | JC-820065W | 1st Nov 2017 |
| Nb Sub | Gurav Suresha Arjuna    | JC-820066Y | 1st Dec 2017 |
| Nb Sub | Parit Vithal Ganapati   | JC-820067F | 1st Dec 2017 |
| Nb Sub | Damodar Pradhan         | JC-820068K | 1st Dec 2017 |

## TO BE SUBEDAR (CLERK)

|                                                                                      |                         |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| Nb Sub                                                                               | Jaswant Singh Kaswan    | JC-819811F | 1st Mar 2017   |
| Nb Sub                                                                               | P Venkata Krishnan      | JC-819833A | 12th Apr 2017* |
| *(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2017 without effect on pay and allces) |                         |            |                |
| Nb Sub                                                                               | Sajeev Kumar V          | JC-819853N | 1st Apr 2017   |
| Nb Sub                                                                               | P Mathiyazhahan         | JC-819889M | 1st May 2017   |
| Nb Sub                                                                               | K Ramanuzam             | JC-819913X | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Agawane Vitthal Rohidas | JC-819914A | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Rattan Lal              | JC-819936Y | 1st Jun 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Pradip Paul             | JC-819937F | 30th Jun 2017* |
| *(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2017 without effect on pay and allces) |                         |            |                |
| Nb Sub                                                                               | Mohd Aslam              | JC-820031H | 4th Oct 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2017 without effect on pay and allces) |                         |            |                |
| Nb Sub                                                                               | Naresh Kumar            | JC-819946H | 1st Oct 2017   |
| Nb Sub                                                                               | Jasbir Singh            | JC-819947L | 1st Oct 2017   |

## TO BE NAIB SUBEDAR (MP)

|                                                                                         |                                 |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Hav                                                                                     | Nek Ram                         | (7777551Y now JC-820271A) | 1st Jan 2017  |
| Hav                                                                                     | Kali Doss D                     | (7777554M now JC-820272H) | 2nd Jan 2017* |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2017 without effect on pay and allces) |                                 |                           |               |
| Hav                                                                                     | Lakshmi Kanta Dewan             | (7777563N now JC-820273L) | 1st Jan 2017  |
| Hav                                                                                     | Bipin Bihari Lenka              | (7777564W now JC-820274N) | 1st Jan 2017  |
| Hav                                                                                     | Anil Kumar Singh                | (7777565Y now JC-820275W) | 2nd Jan 2017* |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2017 without effect on pay and allces) |                                 |                           |               |
| Hav                                                                                     | Sanjay Kumar                    | (7777567K now JC-820276Y) | 1st Jan 2017  |
| Hav                                                                                     | Prakash Chandra Choudhuri       | (7777569P now JC-820277F) | 1st Feb 2017  |
| Hav                                                                                     | S Sathish Kumar                 | (7777571M now JC-820278K) | 1st Feb 2017  |
| Hav                                                                                     | Kailash Chandra                 | (7777574A now JC-820279M) | 1st Feb 2017  |
| Hav                                                                                     | Patel Kalpesh Kumar Premji Bhai | (7777575H now JC-820280F) | 1st Feb 2017  |
| Hav                                                                                     | Rakesh Kumar                    | (7777577N now JC-820281K) | 1st Feb 2017  |

|                                                                                         |                          |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Hav                                                                                     | Navin Kumar Tiwari       | (7777579Y now JC-820282M) | 1st Feb 2017   |
| Hav                                                                                     | Ranjan Kumar Singh       | (7777584K now JC-820283P) | 1st Feb 2017   |
| Hav                                                                                     | Balappa Sutagatti        | (7777587X now JC-820284X) | 1st Feb 2017   |
| Hav                                                                                     | Girish V                 | (7777588A now JC-820286H) | 1st Mar 2017   |
| Hav                                                                                     | Sudheesh KV              | (7777602F now JC-820287L) | 1st Mar 2017   |
| Hav                                                                                     | Chivate Chandra Kant G   | (7777603K now JC-820288N) | 1st Mar 2017   |
| Hav                                                                                     | A Yugandar Naidu         | (7777607A now JC-820289W) | 1st Mar 2017   |
| Hav                                                                                     | Pawar Sunil Shamarao     | (7777610A now JC-820292W) | 1st Apr 2017   |
| Hav                                                                                     | Sreenivasulu J           | (7777611H now JC-820293Y) | 1st Apr 2017   |
| Hav                                                                                     | Rakshakar Pal            | (7777568M now JC-820294F) | 1st Apr 2017   |
| Hav                                                                                     | Kamaruddin Kathat        | (7777493A now JC-820295K) | 1st Apr 2017   |
| Hav                                                                                     | Krishn Kumar Singh       | (7777615Y now JC-820296M) | 1st Apr 2017   |
| Hav                                                                                     | Sisti V Satyanagesh      | (7777616F now JC-820297P) | 1st Apr 2017   |
| Hav                                                                                     | Irom Sanju Singh         | (7783678X now JC-820299A) | 1st May 2017   |
| Hav                                                                                     | Anandha Raj M            | (7777620K now JC-820300K) | 1st May 2017   |
| Hav                                                                                     | Raj Bahadur              | (7777626L now JC-820301M) | 1st May 2017   |
| Hav                                                                                     | Hanamath Sata Raddi      | (7777632Y now JC-820302P) | 1st May 2017   |
| Hav                                                                                     | Rajesh Kumar Singh       | (7777633F now JC-820303X) | 8th May 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2017 without effect on pay and allces) |                          |                           |                |
| Hav                                                                                     | Ajay Kumar Singh         | (7777638A now JC-820304A) | 1st May 2017   |
| Hav                                                                                     | Jagdeesh                 | (7777639H now JC-820305H) | 1st May 2017   |
| Hav                                                                                     | Lakshmi Charana Panda    | (7777640X now JC-820306L) | 1st May 2017   |
| Hav                                                                                     | Pitchala Srinivasa Reddy | (7777317H now JC-820307N) | 1st May 2017   |
| Hav                                                                                     | Markandey Pandey         | (7777605P now JC-820308W) | 1st May 2017   |
| Hav                                                                                     | Unni Krishnan PK         | (7777608H now JC-820309Y) | 11th May 2017* |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2017 without effect on pay and allces) |                          |                           |                |
| Hav                                                                                     | Dhirendra Kumar Patra    | (7777614W now JC-820310N) | 1st May 2017   |
| Hav                                                                                     | Manoj Kumar Singh        | (7777647F now JC-820311W) | 1st May 2017   |
| Hav                                                                                     | Arun Kumar Singh         | (7777648K now JC-820316P) | 1st Jun 2017   |
| Hav                                                                                     | Bindeshwar Kumar         | (7777650F now JC-820317X) | 1st Jun 2017   |
| Hav                                                                                     | Manjit Singh             | (7777654X now JC-820318A) | 1st Jun 2017   |
| Hav                                                                                     | Sajimon PM               | (7777672A now JC-820319H) | 1st Jun 2017   |
| Hav                                                                                     | Manoj Kumar              | (7777673H now JC-820320X) | 1st Jun 2017   |
| Hav                                                                                     | Rajinder Singh           | (7777675N now JC-820321A) | 1st Jun 2017   |
| Hav                                                                                     | Keelu Krishna Rao        | (7777679K now JC-820322H) | 1st Jun 2017   |
| Hav                                                                                     | Rasal Bhima Rao Babu Rao | (7777694Y now JC-820323L) | 1st Jun 2017   |
| Hav                                                                                     | Subhash Chandra Yadava   | (7777695F now JC-820324N) | 2nd Jun 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2017 without effect on pay and allces) |                          |                           |                |
| Hav                                                                                     | Pale Mahadev Dasharath   | (7777698P now JC-820325W) | 1st Jun 2017   |
| Hav                                                                                     | Ishwar Chand Yadav       | (7777699X now JC-820326Y) | 1st Jun 2017   |
| Hav                                                                                     | Raj Dev                  | (7777635M now JC-820327F) | 1st Jul 2017   |
| Hav                                                                                     | Vijai Prakash Rai        | (7777659W now JC-820328K) | 1st Jul 2017   |
| Hav                                                                                     | Pratap Narayan Shukla    | (7777678F now JC-820329M) | 1st Jul 2017   |
| Hav                                                                                     | Sandeep Kumar Jha        | (7777710L now JC-820330F) | 1st Jul 2017   |
| Hav                                                                                     | Goutam Mondal            | (7777715K now JC-820331K) | 1st Jul 2017   |
| Hav                                                                                     | Pratap Patra             | (7777719A now JC-820332M) | 1st Jul 2017   |
| Hav                                                                                     | Birpal Singh             | (7777720P now JC-820333P) | 1st Jul 2017   |
| Hav                                                                                     | Garikapati Srinivasa Rao | (7777727Y now JC-820334X) | 1st Jul 2017   |
| Hav                                                                                     | Venkata Reddy Soreddy    | (7777728F now JC-820335A) | 1st Jul 2017   |
| Hav                                                                                     | Dinesh Kumar Singh       | (7777745F now JC-820336H) | 1st Jul 2017   |
| Hav                                                                                     | Ran Vijay Singh          | (7777746K now JC-820337L) | 1st Jul 2017   |
| Hav                                                                                     | Baljinder Singh Cheema   | (7777751P now JC-820338N) | 1st Aug 2017   |

|                                                                                         |                              |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Hav                                                                                     | Inderjit Singh Baloda        | (7777752X now JC-820339W) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Sarad Kumar Rai              | (7777753A now JC-820340L) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Chinna Narasimhulu K         | (7777755L now JC-820341N) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Puranmal Tatarwal            | (7777756N now JC-820342W) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Yash Pal                     | (7777761Y now JC-820343Y) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Dhani Ram                    | (7777768H now JC-820344F) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Yallappa Pawashe             | (7777779P now JC-820345K) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Jiwan Singh                  | (7777787N now JC-820346M) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Jitendra Kumar Singh         | (7777788W now JC-820347P) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Jigan Shivappa Rama          | (7777789Y now JC-820348X) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Raj Kumar                    | (7777790N now JC-820349A) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Ashok Kumar Yadav            | (7777754H now JC-820350P) | 1st Aug 2017   |
| Hav                                                                                     | Vinod Singh                  | (7777758Y now JC-820352A) | 1st Sep 2017   |
| Hav                                                                                     | Gosavi Gavitamgir Ramesh Gir | (7777766X now JC-820353H) | 1st Sep 2017   |
| Hav                                                                                     | Kuna Govinda Raju            | (7777749X now JC-820354L) | 1st Sep 2017   |
| Hav                                                                                     | Sanjay Kumar Yadav           | (7777697M now JC-820355N) | 1st Sep 2017   |
| Hav                                                                                     | Gummadi Chandra Sekhara Rao  | (7777759F now JC-820356W) | 1st Sep 2017   |
| Hav                                                                                     | G Siva Reddy                 | (7777792Y now JC-820357Y) | 4th Oct 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2017 without effect on pay and allces) |                              |                           |                |
| Hav                                                                                     | Omkar Singh                  | (7777803A now JC-820358F) | 1st Sep 2017   |
| Hav                                                                                     | Visarjan Singh Yadav         | (7777805L now JC-820359K) | 1st Sep 2017   |
| Hav                                                                                     | Rajesh Kumar Mishra          | (7777806N now JC-820360Y) | 18th Sep 2017* |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2017 without effect on pay and allces) |                              |                           |                |
| Hav                                                                                     | Ram Kumar Singh              | (7777721X now JC-820361F) | 1st Oct 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2017 without effect on pay and allces) |                              |                           |                |
| Hav                                                                                     | Rajendra Kumar Sahu          | (7777807W now JC-820365X) | 1st Nov 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2017 without effect on pay and allces) |                              |                           |                |
| Hav                                                                                     | S Nidesh Kumar               | (7777808Y now JC-820366A) | 5th Oct 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2017 without effect on pay and allces) |                              |                           |                |
| Hav                                                                                     | Dileep Kumar Soni            | (7777809F now JC-820367H) | 1st Oct 2017   |
| Hav                                                                                     | Rajesh Kumar                 | (7777812F now JC-820368L) | 1st Oct 2017   |
| Hav                                                                                     | Sanjai Kumar Mishra          | (7777814M now JC-820369N) | 7th Oct 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2017 without effect on pay and allces) |                              |                           |                |
| Hav                                                                                     | Ramachal Singh               | (7777816X now JC-820370H) | 1st Oct 2017   |
| Hav                                                                                     | Sanjai Kumar Pandey          | (7777818H now JC-820371L) | 1st Oct 2017   |
| Hav                                                                                     | Sunil Kumar                  | (7777821H now JC-820372N) | 1st Oct 2017   |
| Hav                                                                                     | Satya Narayan Gurjar         | (7777823N now JC-820373W) | 1st Oct 2017   |
| Hav                                                                                     | Lal Bhaya Rajput             | (7777824W now JC-820374Y) | 1st Oct 2017   |
| Hav                                                                                     | Main Uddin                   | (7777826F now JC-820375F) | 3rd Oct 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2017 without effect on pay and allces) |                              |                           |                |
| Hav                                                                                     | Ramraj Gurjar                | (7777827K now JC-820376K) | 1st Oct 2017   |
| Hav                                                                                     | Dilip Kumar Singh            | (7777828M now JC-820377M) | 1st Oct 2017   |
| Hav                                                                                     | Shyama Kant Singh            | (7777837N now JC-820378P) | 3rd Oct 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2017 without effect on pay and allces) |                              |                           |                |
| Hav                                                                                     | Sudhira Nayak                | (7777833X now JC-820379X) | 1st Oct 2017   |
| Hav                                                                                     | S K Nazir                    | (7777838W now JC-820380M) | 2nd Nov 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2017 without effect on pay and allces) |                              |                           |                |
| Hav                                                                                     | Ramesh Kumar Tiwari          | (7777905W now JC-820381P) | 1st Nov 2017   |
| Hav                                                                                     | Bishnu Pada Mohapatra        | (7777907F now JC-820382X) | 1st Nov 2017   |
| Hav                                                                                     | Vijay Kumar                  | (7777909M now JC-820383A) | 1st Nov 2017   |
| Hav                                                                                     | Praveen Kumar K              | (7777910F now JC-820384H) | 2nd Nov 2017*  |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2017 without effect on pay and allces) |                              |                           |                |

|                                                                                         |                          |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| Hav                                                                                     | Sasi D                   | (7777913P now JC-820385L) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Mukesh Kumar Dubey       | (7777817A now JC-820386N) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Santha Kumar R           | (7777839Y now JC-820387W) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Tilak Raj                | (7777842Y now JC-820388Y) | 2nd Nov 2017* |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2017 without effect on pay and allces) |                          |                           |               |
| Hav                                                                                     | Dibbag Singh             | (7777843F now JC-820389F) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Dilip Kumar              | (7777844K now JC-820390W) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Rajesh Kumar Mishra      | (7777852H now JC-820391Y) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Katkar Jotiram Vitthal   | (7777857F now JC-820392F) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Jay Prakash Tripathi     | (7777858K now JC-820393K) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Santosh Kumar            | (7777786L now JC-820394M) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Munish Kumar Shrivastave | (7777785H now JC-820395P) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Santosh Kumar            | (7777802X now JC-820396X) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Rajesh Singh             | (7777863P now JC-820397A) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Ravi Bhushan Kumar       | (7777866H now JC-820398H) | 3rd Nov 2017* |
| *(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2017 without effect on pay and allces) |                          |                           |               |
| Hav                                                                                     | Vikram Singh             | (7777890Y now JC-820399L) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Maynath Goyary           | (7777851A now JC-820400P) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Rama Ram                 | (7777869W now JC-820401X) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Bhanwar Lal Sirohi       | (7777868N now JC-820402A) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Raj Kumar                | (7777888F now JC-820403H) | 1st Nov 2017  |
| Hav                                                                                     | Kunwar Bahadur Singh     | (7777895X now JC-820404L) | 1st Dec 2017  |
| Hav                                                                                     | Pradip Kumar             | (7777284H now JC-820405N) | 1st Dec 2017  |
| Hav                                                                                     | Phool Chand              | (7777867L now JC-820406W) | 1st Dec 2017  |

## TO BE NAIB SUBEDAR (CLERK)

|     |                                 |                           |              |
|-----|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| Hav | Rajesh Kumar                    | (7780342M now JC-820285A) | 1st Mar 2017 |
| Hav | Tilak Raj                       | (7780345A now JC-820290L) | 1st Apr 2017 |
| Hav | Bijon Kumar Mondal              | (7780351N now JC-820291N) | 1st Apr 2017 |
| Hav | Tomake Amar Dinkar              | (7780402W now JC-820298X) | 1st May 2017 |
| Hav | Sanjay Kumar Pandey             | (7780405K now JC-820312Y) | 1st Jun 2017 |
| Hav | Navas Babu P                    | (7780430H now JC-820313F) | 1st Jun 2017 |
| Hav | Madan Kumar                     | (7780435F now JC-820314K) | 1st Jun 2017 |
| Hav | Ramesh Kumar                    | (7780472P now JC-820315M) | 1st Jun 2017 |
| Hav | Peera Ram Choudhary             | (7780499M now JC-820351X) | 1st Sep 2017 |
| Hav | Deepak Kumar Sharma             | (7780610L now JC-820362K) | 1st Oct 2017 |
| Hav | Tawar Pradeep Singh Ratan Singh | (7780612W now JC-820363M) | 1st Oct 2017 |
| Hav | Anil Kumar                      | (7780615K now JC-820364P) | 1st Oct 2017 |

PRASHANT RAO T.D  
Under Secretary

## ARMY BRANCH

No. 129, dated 10th January 2019—The President is pleased to make the following promotion:—

## REGULAR ARMY

## (INTELLIGENCE CORPS)

## TO BE NB SUB INT (GD)

|                        |             |           |                 |
|------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Rank and Name          | Old Army No | New JC No | Dt of Promotion |
| HAV INT GD BINAY KUMAR | 13698900P   | JC812577N | 30 JUN 2018     |

01 DEC 2017\*

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Dec 2017 without effect on pay and allowances)

|                                                                                                 |           |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| HAV INT GD DINA BANDHU RAY                                                                      | 14427094W | JC812578W | 25 JUL 2018  |
|                                                                                                 |           |           | 01 JUL 2018* |
| *(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Jul 2018 without effect on pay and allowances) |           |           |              |
| HAV INT GD R LALCHHANDAMA                                                                       | 4367264L  | JC812579Y | 02 JUL 2018  |
|                                                                                                 |           |           | 01 JUL 2018* |
| *(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Jul 2018 without effect on pay and allowances) |           |           |              |
| HAV INT GD NAOREM SAKYAI SINGH                                                                  | 7431315A  | JC812580N | 02 JUL 2018  |
|                                                                                                 |           |           | 01 JUL 2018* |
| *(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Jul 2018 without effect on pay and allowances) |           |           |              |
| HAV INT GD SANTOSH KUMAR                                                                        | 3986527P  | JC812582Y | 14 AUG 2008  |
| HAV INT GD CHARAN SINGH YADAV                                                                   | 4570703A  | JC812583F | 01 AUG 2018  |
| HAV INT GD NITESH RAGHUBANSHI                                                                   | 14925697W | JC812584K | 01 AUG 2018  |
| HAV INT GD CHATUR SINGH                                                                         | 14427960M | JC812585M | 01 AUG 2018  |
| HAV INT GD P ASHOK KUMAR                                                                        | 14428023F | JC812586P | 01 AUG 2018  |
| HAV INT GD DAKSHANARAYAN MANNA                                                                  | 15137363H | JC812587X | 01 AUG 2018  |
| HAV INT GD JEYASENTHIL V                                                                        | 2602383A  | JC812588A | 06 AUG 2018  |
|                                                                                                 |           |           | 01 AUG 2018* |
| *(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Aug 2018 without effect on pay and allowances) |           |           |              |
| HAV INT GD FAROOQUIE MOHAMMED                                                                   | 13698956F | JC812589H | 06 AUG 2018  |
|                                                                                                 |           |           | 01 AUG 2018* |
| *(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Aug 2018 without effect on pay and allowances) |           |           |              |
| HAV INT GD YOGESH SINGH                                                                         | 4570332H  | JC812590X | 01 AUG 2018  |
| HAV INT GD SANJAY KUMAR                                                                         | 15137432N | JC812591A | 01 AUG 2018  |
| HAV INT GD JADHAV DADASO VISHNU                                                                 | 15476596Y | JC812592H | 02 AUG 2018  |
|                                                                                                 |           |           | 01 AUG 2018* |
| *(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Aug 2018 without effect on pay and allowances) |           |           |              |
| HAV INT GD ELUMALAI S                                                                           | 14640890F | JC812593L | 10 AUG 2018  |
|                                                                                                 |           |           | 01 AUG 2018* |
| *(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Aug 2018 without effect on pay and allowances) |           |           |              |
| HAV INT GD JOKHU LAL PATEL                                                                      | 14641252P | JC812594N | 10 AUG 2018  |
|                                                                                                 |           |           | 01 AUG 2018* |
| *(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Aug 2018 without effect on pay and allowances) |           |           |              |
| HAV INT GD VINAY KUMAR                                                                          | 15611288P | JC812595W | 01 SEP 2018  |
| HAV INT GD JAGDISH MAURYA                                                                       | 14641249P | JC812596Y | 01 SEP 2018  |
| HAV INT GD MOHAN CHANDRA                                                                        | 4193264Y  | JC812597F | 01 SEP 2018  |

SUNIL KUMAR SHARMA  
Lt. Col.  
GSO-1, MI-20  
HQ of MoD (Army)

## ARMY BRANCH

No. 130, dated 11th January 2019—The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire with permission to retain their rank and wearing of uniform:—

## TERRITORIAL ARMY

## RETIREMENT

|              |          |            |             |
|--------------|----------|------------|-------------|
| Col HRS Rana | TA-42385 | (Infantry) | 30 Apr 2018 |
| Col BP Segan | TA-42149 | (Infantry) | 30 Jun 2018 |

SUDERSHAN KUMAR  
Under Secretary

## ARMY BRANCH

No. 131, dated 14th January 2019—The President is pleased to release the under mentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or up to the age of 40 years whichever is earlier :—

## REGULAR ARMY

## RELEASE : SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS

| SS/WS No  | Name               | Arms/Services | Date of SOS |
|-----------|--------------------|---------------|-------------|
| WS-01068N | ADITI SHARMA       | EME           | 07 JUL 2017 |
| WS-01432F | NIVEDITA           | AOC           | 18 NOV 2017 |
| SS-41994F | RAMAKANTH R        | ARTY          | 15 APR 2016 |
| SS-41173M | MASRAM NS SHYAMRAO | SIGS          | 14 JUN 2015 |
| SS-44431M | BHALERAO KM        | AAD           | 25 MAY 2016 |

The President is pleased to release the under mentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or up to the age of 40 years whichever is earlier :—

## REGULAR ARMY

## RELEASE : SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS

| SS/WS No  | Name                     | Arms/Services | Date of SOS |
|-----------|--------------------------|---------------|-------------|
| SS-39399Y | ASHISH GURUNG            | INF           | 01 SEP 2015 |
| SS-39098P | SIMON PETER ALEXANDER    | ARTY          | 29 MAY 2015 |
| SS-44168M | KRC PRATAP               | ARTY          | 16 OCT 2015 |
| WS-01025Y | ASHA BHARDWAJ            | AOC           | 16 APR 2015 |
| WS-01105W | KAUSAKIYA SHAVIKA RAMESH | ENGRS         | 15 OCT 2015 |
| WS-01493Y | ANURADHA                 | ASC           | 29 AUG 2015 |

The President is pleased to release the under mentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or up to the age of 40 years whichever is earlier :—

## REGULAR ARMY

## RELEASE : SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS

| SS/WS No  | Name                   | Arms/Services | Date of SOS |
|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| WS-01020A | KHOT POONAM JAIPRAKASH | ASC           | 29 AUG 2016 |
| WS-00619F | SHUBHADA NAIK          | INT           | 21 JAN 2016 |
| WS-01196L | PRAGYA JOSHI           | INT           | 13 JUN 2016 |
| WS-01175P | KOLE AMRUTA BALASAHEB  | AAD           | 09 JUN 2016 |
| WS-01213A | ISHA YADAV             | AOC           | 18 OCT 2016 |

The President is pleased to release the under mentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or up to the age of 40 years whichever is earlier :—

## REGULAR ARMY

## RELEASE : SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS

| SS/WS No  | Name                  | Arms/Services | Date of SOS |
|-----------|-----------------------|---------------|-------------|
| WS-01288X | NIDHI CHANDEL         | ENGRS         | 18 SEP 2018 |
| WS-01206K | SANDHYA LAKSHMI ULAPU | ENGRS         | 12 JUN 2018 |
| WS-01526Y | RAMA RAJENDRAN        | INT           | 28 MAR 2018 |
| SS-46330X | LOKESH HOODA          | SIGS          | 11 JUN 2018 |
| SS-46232X | ADARSH NAIR M         | AC            | 12 MAY 2018 |
| SS-46421F | PRADHYUMN RAO         | SIG           | 11 JUN 2018 |
| SS-42966F | BALHANS GUPTA         | INF           | 17 JUN 2018 |
| SS-40516L | R S SHYAM             | SIGS          | 06 JUN 2018 |

The President is pleased to release the under mentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or up to the age of 40 years whichever is earlier :—

## REGULAR ARMY

## RELEASE : SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS

| SS/WS No  | Name                           | Arms/Services | Date of SOS |
|-----------|--------------------------------|---------------|-------------|
| SS-40274N | SANJAY KUMAR BABANRAO SONAWANE | ARTY          | 02 DEC 2017 |
| SS-42738Y | PAVELJEET SINGH                | AOC           | 18 NOV 2017 |
| SS-42458L | VINOD SHARMA                   | INF           | 14 APR 2017 |
| SS-42828A | SANDEEP SAHI                   | MECH INF      | 18 DEC 2017 |
| SS-42673W | SATISH MANGALMURTI GADRE       | AOC           | 10 NOV 2017 |
| SS-42825M | RUPAM TALUKDAR                 | INF           | 22 SEP 2017 |
| WS-01320F | JAYA MEHTA                     | EME           | 13 MAY 2017 |
| WS-01139K | NEHA SHUKLA                    | AAD           | 03 MAY 2017 |
| WS-01341X | DEEPIKA SHARMA                 | SIGS          | 11 JUN 2017 |
| WS-01173K | TARINI SHUKLA                  | ENGRS         | 11 OCT 2017 |
| WS-01179L | ARCHANA TYAGI                  | AOC           | 13 JUN 2017 |
| WS-00983A | KAJAL KIRAN SINGH              | ASC           | 30 MAR 2017 |
| WS-01323P | VAISHALI SHARMA                | JAG           | 12 JUN 2017 |

The President is pleased to release the under mentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or up to the age of 40 years whichever is earlier :—

## REGULAR ARMY

## RELEASE : SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS

| SS/WS No  | Name          | Arms/Services | Date of SOS |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| WS-01388H | RICHA RAWAT   | AOC           | 20 OCT 2017 |
| WS-01397K | L CHAOBA DEVI | ASC           | 20 OCT 2017 |
| WS-01090Y | SHIPRA MISHRA | AEC           | 12 SEP 2017 |

The President is pleased to release the under mentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or up to the age of 40 years whichever is earlier :—

## REGULAR ARMY

## RELEASE : SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS

| SS/WS No  | Name               | Arms/Services | Date of SOS/Release |
|-----------|--------------------|---------------|---------------------|
| SS-38997K | ANURAG SHRIVASTAVA | ARTY          | 29 MAY 2015         |
| SS-39607H | BRIJESH THAPA      | INF           | 03 APR 2015         |
| WS-01082A | PREETI SHARMA      | AAD           | 15 OCT 2015         |

The President is pleased to release the under mentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or up to the age of 40 years whichever is earlier :—

## REGULAR ARMY

## RELEASE : SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS

| SS/WS No  | Name                 | Arms/Services | Date of SOS |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|
| SS-40111A | ALOK KUMAR DAS       | EME           | 17 APR 2017 |
| SS-41644P | DEEPAK VAISHNAV      | INT           | 26 FEB 2017 |
| SS-40433A | LAMTINTHANG KHONGSAI | INF           | 02 DEC 2017 |
| SS-45893L | RITU MEHLA           | ENGR          | 25 OCT 2017 |
| WS-01168Y | MANALI KHANGAROT     | INT           | 26 JUL 2017 |
| WS-00770M | REBECCA CHHAKCHHUAK  | AEC           | 03 JUN 2017 |

The President is pleased to release the under mentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or up to the age of 40 years whichever is earlier :-

## REGULAR ARMY

## RELEASE : SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS

| SS/WS No  | Name            | Arms/Services | Date of SOS |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| WS-00726H | RUCHIKA SHARMA  | INT           | 07 JAN 2017 |
| WS-01238M | SHILPA PHAPALE  | SIGS          | 13 NOV 2016 |
| WS-01241M | SARBJEET K GILL | EME           | 12 NOV 2016 |
| WS-00903X | JASREEN DHILLON | ENGRS         | 26 JUN 2016 |

SV SARMA  
Col  
Col MS 7

## (ARMY BRANCH)

No. 132, dated 15th January 2019—The President is pleased to make the following appointment.

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

(to be Lt w.e.f 11 Dec 1999)

## CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 105 Regular Course published in the Gazette of India dated 02 Dec 2000 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is here by amended as under :—

|      |                                     |           |       |
|------|-------------------------------------|-----------|-------|
| For  | SANTAGOUDAR MALLANGOUDA PUTTANGOUDA | IC-59331Y | ENGRS |
| Read | SANTAGOUDAR MALLANGOUDA PUTTANGOUDA | IC-59331Y | ENGRS |

SANDEEP SINGH THAKUR  
Lt Col  
AMS 8B